

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2916]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 27, 2013/पौष 6, 1935

No. 2916]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 27, 2013/PAUSHA 6, 1935

रेल मंत्रालय

(रेल बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2013

का. आ. 3891(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) के अधीन जारी और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) तारीख 3 जून, 2013 में प्रकाशित, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेल बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1415(अ), तारीख 30 मई, 2013 द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, हरियाणा राज्य के गुडगांव जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार, उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों, अर्थात् हिन्दुस्तान, तारीख 27 जून, 2013 और द इण्डियन एक्सप्रेस, तारीख 27 जून, 2013 में प्रकाशित किया गया था;

और, सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई आक्षेप प्राप्त नहीं किया गया है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम, की धारा 20ड की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और यह कि केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

हरियाणा राज्य में गुडगांव जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना सहित या उससे रहित संक्षिप्त विवरण

जिला का नाम— गुडगांव

तालुका का नाम— सोहना

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	भूमि का प्रकार	भूमि का प्रकृति	सर्वेक्षण संख्याक / ब्लॉक संख्याक	क्षेत्र हैक्टर में	भूस्वामी का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	(1) लाखुवास	व्यक्तिगत	कृषि	62//12	0.0282	मैसर्ज अजय इन्टरप्राजिज प्रा0 लि0 नेहरू पेलैस नई दिल्ली
		व्यक्तिगत	कृषि	62//13	0.0877	मैसर्ज अजय इन्टरप्राजिज प्रा0 लि0 नेहरू पेलैस नई दिल्ली
		व्यक्तिगत	कृषि	62//18	0.0809	मैसर्ज अजय इन्टरप्राजिज प्रा0 लि0 नेहरू पेलैस नई दिल्ली
		व्यक्तिगत	कृषि	62//14	0.0740	मैसर्ज नेहरू पेलैस होटल्स एण्ड रियल इस्टेट प्रा0 लि0 2/3 भाग, बसन्त सिंह पुत्र दयाराम उर्फ दईमन 1/3 भाग
		व्यक्तिगत	कृषि	62//15	0.0155	मैसर्ज अजय इन्टरप्राजिज प्रा0 लि0 नेहरू पेलैस नई दिल्ली
		व्यक्तिगत	कृषि	62//16	0.0537	मैसर्ज नेहरू पेलैस होटल्स एण्ड रियल इस्टेट प्रा0 लि0 2/3 भाग, बसन्त सिंह पुत्र दयाराम उर्फ दईमन 1/3 भाग
		व्यक्तिगत	कृषि	63//20	0.0080	मैसर्ज अजय इन्टरप्राजिज प्रा0 लि0 नेहरू पेलैस नई दिल्ली
		व्यक्तिगत	कृषि	63//19	0.0046	मेहरचन्द पुत्र रामसरूप पुत्र मोहर सिंह वासी देह
		व्यक्तिगत	कृषि	63//18	0.0016	मेहरचन्द पुत्र रामसरूप पुत्र मोहर सिंह वासी देह
		व्यक्तिगत	कृषि	64//11/1	0.0016	प्रभू दयाल, कृष्ण कुमार पुत्रान घर्मसिंह उर्फ धर्मचन्द पुत्र रामसरूप समभाग
		व्यक्तिगत	कृषि	64//11/2	0.0025	कुल 120 भागप्रकाशलाल, रोहताश, राजवीर पुत्रान व श्रीमति सरला, बिमला गमला, शिमला देवी, राजवती पुत्रीयान व श्रीमति बसन्ती विधवा निर्मल पुत्र गिरवर समभाग 20 भाग, अमरचन्द पुत्र गिरवर 10 भाग, मुकेश, विक्रम पुत्रान व श्रीमति संगीता, पिंकि पुत्रीयान व श्रीमति दया विधवा रामचन्द पुत्र गिरवर 20 भाग, रामबीर पुत्र तुलाराम पुत्र तोहफा 70 भाग
		व्यक्तिगत	कृषि	64//12	0.0379	प्रकाशलाल, रोहताश, राजवीर पुत्रान व श्रीमति सरला, बिमला गमला, शिमला देवी, राजवती पुत्रीयान व श्रीमति बसन्ती विधवा निर्मल पुत्र गिरवर समभाग 1/6 भाग, अमरचन्द पुत्र गिरवर पुत्र डूंगर 1/6 भाग, रामबीर पुत्र तुलाराम पुत्र तोहफा पुत्र डूंगर 1/2 भाग, मालकान कामल, वीर सिंह, पुत्र फकीर चन्द 1/6 भाग
		व्यक्तिगत	कृषि	64//13	0.0688	कुल 895 भागप्रकाशलाल, रोहताश, राजवीर पुत्रान व श्रीमति सरला, बिमला, गमला, शिमला देवी, राजवती पुत्रीयान व श्रीमति बसन्ती विधवा निर्मल पुत्र गिरवर समभाग 149 भाग, मुकेश, विक्रम पुत्रान व श्रीमति संगीता, पिंकि पुत्रीयान व श्रीमति दया विधवा रामचन्द पुत्र गिरवर 69 भाग, रामबीर पुत्र तुलाराम पुत्र तोहफा 677 भाग
		व्यक्तिगत	कृषि	64//14	0.1093	लखमीचन्द, हुकमसिंह, ताराचन्द, रामकंवार, श्री

					किशन, औम प्रकाश पुत्रान छैलू पुत्र भूपसिंह हर छः समभाग
	व्यक्तिगत	कृषि	64//15	0.1431	लखमीचन्द, हुकमसिंह, ताराचन्द, रामकवार, श्री किशन, औम प्रकाश पुत्रान छैलू पुत्र भूपसिंह हर छः समभाग
	व्यक्तिगत	कृषि	65//11	0.1524	महाबीर, सतबीर, रणवीर, शेरसिंह, गरीबदास, वेदप्रकाश, सुमन पुत्रान चन्दगीराम पुत्र तोता हर सात समभाग 7/8 भाग, नवीन पुत्र व श्रीमति मनी देवी विधवा धर्मबीर पुत्र चन्दगीराम हर दो समभाग 1/8 भाग
	व्यक्तिगत	कृषि	65//12	0.1543	महाबीर, सतबीर, रणवीर, शेरसिंह, गरीबदास, वेदप्रकाश, सुमन पुत्रान चन्दगीराम पुत्र तोता हर सात समभाग 7/8 भाग, नवीन पुत्र व श्रीमति मनी देवी विधवा धर्मबीर पुत्र चन्दगीराम हर दो समभाग 1/8 भाग
	व्यक्तिगत	कृषि	65//13	0.0549	महाबीर, सतबीर, रणवीर, शेरसिंह, गरीबदास, वेदप्रकाश, सुमन पुत्रान चन्दगीराम पुत्र तोता हर सात समभाग 7/8 भाग, नवीन पुत्र व श्रीमति मनी देवी विधवा धर्मबीर पुत्र चन्दगीराम हर दो समभाग 1/8 भाग
(2) रतिकानावाद (बरखेड़ा)	व्यक्तिगत	कृषि	7//3	0.0988	राजीव पुत्र व श्रीमति स्नेहलता, रेनू पुजा पुत्रीयान व श्रीमति सुमन्तरा विधवा सतवीर, पुत्र, रतन सिंह हर पांच समभाग 8/290 भाग, जोनी, नितिन पुत्रान व श्रीमति अन्नु पुत्री व श्रीमति उर्मिला विधवा सतीश कुमार पुत्र रतन सिंह हर चार समभाग 8/290 भाग, व सतपाल पुत्र रतन सिंह 8/290 भाग, श्रीमति सतवन्ती कृष्णा देवी पुत्रीयान व अशरफी विधवा रतन सिंह हर तीन समभाग 49/290 भाग, सुमेर सिंह राजेन्द्र पुत्रान व श्रीमति कमलेश कुक्की उर्फ कमलेश, सन्तोष, पूनम पुत्रीयान व श्रीमति फूलवती विधवा भरत सिंह उर्फ भरतू पुत्र जगराम समभाग 97/290 भाग, पार्थ 20/290 भाग पुत्र व श्रीमति दिपांशी पुत्री व श्रीमति सुनीता विधवा सुधीर पुत्र सुखराम समभाग 20/290 भाग, सुदेश कुमार पुत्र व श्रीमति कृष्णा देवी विधवा सुखराम समभाग 80/290 भाग
	व्यक्तिगत	कृषि	7//4	0.1443	राजीव पुत्र व श्रीमति स्नेहलता, रेनू पुजा पुत्रीयान व श्रीमति सुमन्तरा विधवा सतवीर, पुत्र, रतन सिंह हर पांच समभाग 8/290 भाग, जोनी, नितिन पुत्रान व श्रीमति अन्नु पुत्री व श्रीमति उर्मिला विधवा सतीश कुमार पुत्र रतन सिंह हर चार समभाग 8/290 भाग, व सतपाल पुत्र रतन सिंह 8/290 भाग, श्रीमति सतवन्ती कृष्णा देवी पुत्रीयान व अशरफी विधवा रतन सिंह हर तीन समभाग 49/290 भाग, सुमेर सिंह राजेन्द्र पुत्रान व श्रीमति कमलेश कुक्की उर्फ कमलेश, सन्तोष, पूनम पुत्रीयान व श्रीमति फूलवती विधवा भरत सिंह उर्फ भरतू पुत्र जगराम समभाग 97/290 भाग, पार्थ 20/290 भाग पुत्र व श्रीमति दिपांशी पुत्री व श्रीमति सुनीता विधवा सुधीर पुत्र सुखराम समभाग 20/290 भाग, सुदेश कुमार पुत्र व श्रीमति कृष्णा देवी विधवा सुखराम समभाग 80/290 भाग
	व्यक्तिगत	कृषि	7//5	0.1294	राजीव पुत्र व श्रीमति स्नेहलता, रेनू पुजा पुत्रीयान व श्रीमति सुमन्तरा विधवा सतवीर, पुत्र, रतन सिंह हर पांच समभाग 8/290 भाग, जोनी, नितिन पुत्रान व श्रीमति अन्नु पुत्री व श्रीमति उर्मिला

[illegible]

					सिंह उर्फ भरतू पुत्र जगराम समभाग 97/290 भाग, पार्थ 20/290 भाग पुत्र व श्रीमति दिपांशी पुत्री व श्रीमति सुनीता विधवा सुधीर पुत्र सुखराम समभाग 20/290 भाग, सुदेश कुमार पुत्र व श्रीमति कृष्णा देवी विधवा सुखराम समभाग 80/290 भाग
	ग्राम पंचायत	अकृषि	सडक-38	0.0054	ग्राम ग्राम पंचायत देह खाना कास्त शरे आम
	व्यक्तिगत	कृषि	8//3	0.0845	राजीव पुत्र व श्रीमति स्नेहलता, रेनू पुजा पुत्रीयान व श्रीमति सुमन्तरा विधवा सतवीर, पुत्र, रतन सिंह हर पांच समभाग 8/290 भाग, जोनी, नितिन पुत्रान व श्रीमति अन्नु पुत्री व श्रीमति उर्मिला विधवा सतीश कुमार पुत्र रतन सिंह हर चार समभाग 8/290 भाग, व सतपाल पुत्र रतन सिंह 8/290 भाग, श्रीमति सतवन्ती कृष्णा देवी पुत्रीयान व अशरफी विधवा रतन सिंह हर तीन समभाग 49/290 भाग, सुमेर सिंह राजेन्द्र पुत्रान व श्रीमति कमलेश कुक्की उर्फ कमलेश, सन्तोष, पूनम पुत्रीयान व श्रीमति फूलवती विधवा भरत सिंह उर्फ भरतू पुत्र जगराम समभाग 97/290 भाग, पार्थ 20/290 भाग पुत्र व श्रीमति दिपांशी पुत्री व श्रीमति सुनीता विधवा सुधीर पुत्र सुखराम समभाग 20/290 भाग, सुदेश कुमार पुत्र व श्रीमति कृष्णा देवी विधवा सुखराम समभाग 80/290 भाग
	व्यक्तिगत	कृषि	8//4	0.0696	राजीव पुत्र व श्रीमति स्नेहलता, रेनू पुजा पुत्रीयान व श्रीमति सुमन्तरा विधवा सतवीर, पुत्र, रतन सिंह हर पांच समभाग 8/290 भाग, जोनी, नितिन पुत्रान व श्रीमति अन्नु पुत्री व श्रीमति उर्मिला विधवा सतीश कुमार पुत्र रतन सिंह हर चार समभाग 8/290 भाग, व सतपाल पुत्र रतन सिंह 8/290 भाग, श्रीमति सतवन्ती कृष्णा देवी पुत्रीयान व अशरफी विधवा रतन सिंह हर तीन समभाग 49/290 भाग, सुमेर सिंह राजेन्द्र पुत्रान व श्रीमति कमलेश कुक्की उर्फ कमलेश, सन्तोष, पूनम पुत्रीयान व श्रीमति फूलवती विधवा भरत सिंह उर्फ भरतू पुत्र जगराम समभाग 97/290 भाग, पार्थ 20/290 भाग पुत्र व श्रीमति दिपांशी पुत्री व श्रीमति सुनीता विधवा सुधीर पुत्र सुखराम समभाग 20/290 भाग, सुदेश कुमार पुत्र व श्रीमति कृष्णा देवी विधवा सुखराम समभाग 80/290 भाग
	व्यक्तिगत	कृषि	8//5	0.0546	किरोड़ी पुत्र भरता निवासी बादशाहपुर
	व्यक्तिगत	कृषि	9//1	0.0397	राजकुमार, जयसिंह, किरोड़ी, जिले सिंह, पुत्रान व श्रीमति माया पूनम पुत्रीयान भरता पुत्र करतम 6/9 भाग, श्रीमति सुमन विधवा व दिनेश पुत्र व निशा पुत्री सतीश पुत्र भरता हर तीन समभाग 1/9 भाग, अनिल, अर्जुन पुत्रान व श्रीमति रामवती विधवा मुकेश पुत्र भरता हर तीन समभाग 1/9 भाग, प्रवीन, विकाश, मोहित, कृष्ण, अजय पुत्रान व श्रीमति सोनवती विधवा रमेश पुत्र भरता हर छः समभाग 1/9 भाग
	व्यक्तिगत	कृषि	9//2	0.0247	राजकुमार, जयसिंह, किरोड़ी, जिले सिंह, पुत्रान व श्रीमति माया पूनम पुत्रीयान भरता पुत्र करतम 6/9 भाग, श्रीमति सुमन विधवा व दिनेश पुत्र व निशा पुत्री सतीश पुत्र भरता हर तीन समभाग 1/9 भाग, अनिल, अर्जुन पुत्रान व श्रीमति रामवती विधवा मुकेश पुत्र भरता हर तीन समभाग

						1/9 भाग, प्रवीन, विकाश, मोहित, कृष्ण, अजय पुत्रान व श्रीमति सोनवती विधवा रमेश पुत्र भरता हर छः समभाग 1/9 भाग
		व्यक्तिगत	कृषि	4//23	0.0043	सुरजमल, सतीश, पुत्रान व श्रीमति निर्मला देवी पुत्री सोदान सिंह 3/5 भाग, श्रीमति उर्मिला विधवा व विकान्त, बसन्त पुत्रान व रजनी पुत्री प्रताप सिंह पुत्र सौदान सिंह हर चार समभाग 1/5 भाग, श्रीमति आशा देवी विधवा व सोनू, रमन, पुत्रान विरेन्द्र सिंह पुत्र शोदान हर तीन समभाग 1/5 भाग
		व्यक्तिगत	कृषि	9//3/1	0.0047	राजकुमार, जयसिंह, किरोड़ी, जिले सिंह, पुत्रान व श्रीमति माया पूनम पुत्रीयान भरता पुत्र करतम 6/9 भाग, श्रीमति सुमन विधवा व दिनेश पुत्र व निशा पुत्री सतीश पुत्र भरता हर तीन समभाग 1/9 भाग, अनिल, अर्जुन पुत्रान व श्रीमति रामवती विधवा मुकेश पुत्र भरता हर तीन समभाग 1/9 भाग, प्रवीन, विकाश, मोहित, कृष्ण, अजय पुत्रान व श्रीमति सोनवती विधवा रमेश पुत्र भरता हर छः समभाग 1/9 भाग
		व्यक्तिगत	कृषि	4//17	0.0064	सुरजमल, सतीश, पुत्रान व श्रीमति निर्मला देवी पुत्री सोदान सिंह 3/5 भाग, श्रीमति उर्मिला विधवा व विकान्त, बसन्त पुत्रान व रजनी पुत्री प्रताप सिंह पुत्र सौदान सिंह हर चार समभाग 1/5 भाग, श्रीमति आशा देवी विधवा व सोनू, रमन, पुत्रान विरेन्द्र सिंह पुत्र शोदान हर तीन समभाग 1/5 भाग
		व्यक्तिगत	कृषि	4//16	0.0191	सुरजमल, सतीश, पुत्रान व श्रीमति निर्मला देवी पुत्री सोदान सिंह 3/5 भाग, श्रीमति उर्मिला विधवा व विकान्त, बसन्त पुत्रान व रजनी पुत्री प्रताप सिंह पुत्र सौदान सिंह हर चार समभाग 1/5 भाग, श्रीमति आशा देवी विधवा व सोनू, रमन, पुत्रान विरेन्द्र सिंह पुत्र शोदान हर तीन समभाग 1/5 भाग
		व्यक्तिगत	कृषि	3//20	0.0263	रतिभान, रामफल, सीताराम, विक्रमसिंह, राजकुमार पुत्रान वेदराम समभाग 488/1950 भाग, श्रीमति किरनवती देवी पत्नी दौलतराम 1302/1950 भाग, श्रीमति ऐशवन्ती पत्नी मामचन्द पुत्र मंगतराम वासी बादशाहपुर 160/1950 भाग
		व्यक्तिगत	कृषि	3//19	0.0451	रतिभान, रामफल, सीताराम, विक्रमसिंह, राजकुमार पुत्रान वेदराम समभाग 488/1950 भाग, श्रीमति किरनवती देवी पत्नी दौलतराम 1302/1950 भाग, श्रीमति ऐशवन्ती पत्नी मामचन्द पुत्र मंगतराम वासी बादशाहपुर 160/1950 भाग
		व्यक्तिगत	कृषि	3//24	0.0015	रतिभान, रामफल, सीताराम, विक्रमसिंह, राजकुमार पुत्रान वेदराम समभाग 488/1950 भाग, श्रीमति किरनवती देवी पत्नी दौलतराम 1302/1950 भाग, श्रीमति ऐशवन्ती पत्नी मामचन्द पुत्र मंगतराम वासी बादशाहपुर 160/1950 भाग
	(3)सांचौली	व्यक्तिगत	कृषि	62//4	0.0137	रहमुदीन, खुर्शीद पुत्रान ईसमाइल पुत्र धमण्डी हर दो समभाग 47/94 भाग, जमशेद, शाहरूखा पुत्रान आसीन पुत्र ईसमाइल हर दो समभाग 47/188 भाग, गजराज, इन्दर, रामअवतार, अशोक कुमार पुत्रान देशराज हर चार समभाग 47/188 भाग
		व्यक्तिगत	कृषि	62//5	0.0132	रहमुदीन, खुर्शीद पुत्रान ईसमाइल समभाग 1/2 भाग, जमशेद, शाहरूख पुत्रान आसीन समभाग 1/4 भाग, गजराज, इन्दर, रामअवतार, अशोक कुमार पुत्रान देशराज हर चार समभाग 1/4 भाग

	व्यक्तिगत	कृषि	61//1	0.0057	श्रीमति प्रकाश देवी विधवा सुरेश पुत्र दलीप 1/5 भाग, श्रीमति कमलेश विधवा राजकुमार पुत्र दलीप 1/5 भाग करनैल सिंह, नरेश पुत्रान दलीप 2/5 भाग, श्रीमति सोमवती विधवा व अमित, शिवा पुत्रान व अमिता पुत्री जवाहर सिंह पुत्र दलीप हर चार समभाग 1/5 भाग
	व्यक्तिगत	कृषि	49//17/2	0.0570	शमशु, कमरुद्दीन, पुत्रान युसुफ हर दो समभाग
	व्यक्तिगत	कृषि	49//21	0.0086	श्रीमति प्रकाश देवी विधवा सुरेश पुत्र दलीप 1/5 भाग, श्रीमति कमलेश विधवा राजकुमार पुत्र दलीप 1/5 भाग, करनैल सिंह, नरेश पुत्रान दलीप हर दो समभाग 2/5 भाग, श्रीमति सोमवती विधवा व अमित, शिवा पुत्रान व अमिता पुत्री जवाहर सिंह पुत्र दलीप हर चार समभाग 1/5 भाग
	व्यक्तिगत	कृषि	49//22	0.0150	श्रीमति प्रकाश देवी विधवा सुरेश पुत्र दलीप 1/5 भाग, श्रीमति कमलेश विधवा राजकुमार पुत्र दलीप 1/5 भाग करनैल सिंह, नरेश पुत्रान दलीप हर दो समभाग 2/5 भाग, श्रीमति सोमवती विधवा व अमित, शिवा पुत्रान व अमिता पुत्री जवाहर सिंह पुत्र दलीप हर चार समभाग 1/5 भाग
	ग्राम पंचायत	अकृषि	49//23	0.0157	ग्राम पंचायत सांचौली
	व्यक्तिगत	कृषि	49//24	0.0172	शमशु, कमरुद्दीन, पुत्रान युसुफ हर दो समभाग
	व्यक्तिगत	कृषि	49//25/1	0.0050	श्रीमति रसीदन पत्नी हसन मोहम्मद 1/2 भाग, बलेश पत्नीराजराम पुत्र देशराम 1/2 भाग
	व्यक्तिगत	कृषि	49//25/2	0.0121	श्रीमति प्रकाश देवी विधवा सुरेश पुत्र दलीप 1/5 भाग, श्रीमति कमलेश विधवा राजकुमार पुत्र दलीप 1/5 भाग करनैल सिंह, नरेश पुत्रान दलीप हर दो समभाग 2/5 भाग, श्रीमति सोमवती विधवा व अमित, शिवा पुत्रान व अमिता पुत्री जवाहर सिंह पुत्र दलीप हर चार समभाग 1/5 भाग
	व्यक्तिगत	कृषि	50//16	0.0210	अब्बास, अजरुद्दीन पुत्रान इदरीश समभाग 1/24 भाग, रहमत पुत्र शिताब 1/4 भाग, श्रीमति माया देवी पत्नी ब्रह्मसिंह 17/48 भाग, श्रीमति जगरेश पत्नी सरदाराम 17/48 भाग
	व्यक्तिगत	कृषि	50//17	0.0203	अब्बास, अजरुद्दीन पुत्रान इदरीश समभाग 1/24 भाग, रहमत पुत्र शिताब 1/4 भाग, श्रीमति माया देवी पत्नी ब्रह्मसिंह 17/48 भाग, श्रीमति जगरेश पत्नी सरदाराम 17/48 भाग
	व्यक्तिगत	कृषि	50//21	0.0177	कृष्णपाल, राजकुमार, ओमदेव पुत्रान हरसरूप पुत्र शिब्बा समभाग
	व्यक्तिगत	कृषि	50//22	0.0184	कृष्णपाल, राजकुमार, ओमदेव पुत्रान हरसरूप पुत्र शिब्बा समभाग
	व्यक्तिगत	कृषि	50//23	0.0078	कृष्णपाल, राजकुमार, ओमदेव पुत्रान हरसरूप पुत्र शिब्बा समभाग
	व्यक्तिगत	कृषि	51//16	0.0245	कबीर उर्फ हब्बू, शब्बीर, शमशुद्दीन, जमील, शमील, नजीर पुत्रान फिरोजी पुत्र ईसब समभाग साकनान देह
	व्यक्तिगत	कृषि	51//17	0.0238	जिकरशाह पुत्र चिम्मन शाह पुत्र नविखा
	व्यक्तिगत	कृषि	51//18	0.0231	जिकरशाह पुत्र चिम्मन शाह पुत्र नविखा
	व्यक्तिगत	कृषि	51//19	0.0224	दिलबाग सिंह, बालकिशन पुत्रान बादाम सिंह पुत्र कल्लूरामसमभाग 1/2 भाग, मनजीत पुत्र करतार सिंह पुत्र बादाम सिंह 1/4 भाग, भूपेन्द्र सिंह, प्रदीप पुत्रान व श्रीमति सुनीता, बेबी, शशी पुत्रीयान रनसिंह समभाग 1/4 भाग
	व्यक्तिगत	कृषि	51//20	0.0217	दिलबाग सिंह, बालकिशन पुत्रान बादाम सिंह पुत्र

					कल्लूरामसमभाग 1/2 भाग, मनजीत पुत्र करतार सिंह पुत्र बादाम सिंह 1/4 भाग, भूपेन्द्र सिंह, प्रदीप पुत्रान व श्रीमति सुनीता, बेबी, शशी पुत्रीयान रनसिंह समभाग 1/4 भाग
	व्यक्तिगत	कृषि	52//11	0.0202	महेश त्यागी पुत्र सुरजन सिंह पुत्र श्रीराम वासी मैदावास
	व्यक्तिगत	कृषि	52//12	0.0263	कबीर उर्फ हब्बू, शब्बीर, शमशुदीन, जमील, शमील, नजीर पुत्रान फिरोजी समभाग 1/2 भाग, राजेश्वर त्यागी पुत्र देशराज पुत्र मनीराम 1/24 भाग, राजेन्द्र त्यागी पुत्र अतरसिंह पुत्र देशराज 1/24 भाग, गौरव त्यागी पुत्र मुलचन्द पुत्र देशराज 1/24 भाग व श्रीमति बाला देवी पत्नी बलराज त्यागी 1/24 भाग, अनुज कुमार विपिन पुत्रान व श्रीमति सुकर्मा देवी विधवा मांगेराम हर तीन समभाग 1/12 भाग, विनोद त्यागी पुत्र रघबीर शरण पुत्र श्रीराम समभाग 1/12 भाग, जयपाल राजकुमार, ईश्वरचन्द पुत्रान विशम्बर दयाल हर तीन समभाग 1/8 भाग, श्रीमति रमिता विधवा व कपिल पुत्र सुभाष चन्द पुत्र विशम्बर दयाल हर दो समभाग 1/24 भाग
	व्यक्तिगत	कृषि	52//13	0.0270	कबीर उर्फ हब्बू, शब्बीर, शमशुदीन, जमील, शमील, नजीर पुत्रान फिरोजी समभाग 1/2 भाग, राजेश्वर त्यागी पुत्र देशराज पुत्र मनीराम 1/24 भाग, राजेन्द्र त्यागी पुत्र अतरसिंह पुत्र देशराज 1/24 भाग, गौरव त्यागी पुत्र मुलचन्द पुत्र देशराज 1/24 भाग व श्रीमति बाला देवी पत्नी बलराज त्यागी 1/24 भाग, अनुज कुमार विपिन पुत्रान व श्रीमति सुकर्मा देवी विधवा मांगेराम हर तीन समभाग 1/12 भाग, विनोद त्यागी पुत्र रघबीर शरण पुत्र श्रीराम समभाग 1/12 भाग, जयपाल राजकुमार, ईश्वरचन्द पुत्रान विशम्बर दयाल हर तीन समभाग 1/8 भाग, श्रीमति रमिता विधवा व कपिल पुत्र सुभाष चन्द पुत्र विशम्बर दयाल हर दो समभाग 1/24 भाग
	व्यक्तिगत	कृषि	52//14	0.0277	कबीर उर्फ हब्बू, शब्बीर, शमशुदीन, जमील, शमील, नजीर पुत्रान फिरोजी समभाग 1/2 भाग, राजेश्वर त्यागी पुत्र देशराज पुत्र मनीराम 1/24 भाग, राजेन्द्र त्यागी पुत्र अतरसिंह पुत्र देशराज 1/24 भाग, गौरव त्यागी पुत्र मुलचन्द पुत्र देशराज 1/24 भाग व श्रीमति बाला देवी पत्नी बलराज त्यागी 1/24 भाग, अनुज कुमार विपिन पुत्रान व श्रीमति सुकर्मा देवी विधवा मांगेराम हर तीन समभाग 1/12 भाग, विनोद त्यागी पुत्र रघबीर शरण पुत्र श्रीराम समभाग 1/12 भाग, जयपाल राजकुमार, ईश्वरचन्द पुत्रान विशम्बर दयाल हर तीन समभाग 1/8 भाग, श्रीमति रमिता विधवा व कपिल पुत्र सुभाष चन्द पुत्र विशम्बर दयाल हर दो समभाग 1/24 भाग
	व्यक्तिगत	कृषि	52//15/1	0.0080	कबीर उर्फ हब्बू, शब्बीर, शमशुदीन, जमील, शमील, नजीर पुत्रान फिरोजी समभाग 1/2 भाग, राजेश्वर त्यागी पुत्र देशराज पुत्र मनीराम 1/24 भाग, राजेन्द्र त्यागी पुत्र अतरसिंह पुत्र देशराज 1/24 भाग, गौरव त्यागी पुत्र मुलचन्द पुत्र देशराज 1/24 भाग व श्रीमति बाला देवी पत्नी बलराज त्यागी 1/24 भाग, अनुज कुमार विपिन पुत्रान व श्रीमति सुकर्मा देवी विधवा मांगेराम हर तीन समभाग 1/12 भाग, विनोद त्यागी पुत्र

				रघबीर शरण पुत्र श्रीराम समभाग 1/12 भाग, जयपाल राजकुमार, ईश्वरचन्द पुत्रान विशम्बर दयाल हर तीन समभाग 1/8 भाग, श्रीमति रमिता विधवा व कपिल पुत्र सुभाष चन्द पुत्र विशम्बर दयाल हर दो समभाग 1/24 भाग
व्यक्तिगत	कृषि	52//15/2	0.0204	चन्दरभान, अतर सिंह, लकखीराम पुत्रान घन्ना राम समभाग
व्यक्तिगत	कृषि	52//20	0.0018	वेद प्रकाश, ओम प्रकाश पुत्रान दलीप सिंह समभाग वासी खाहे तह व जिला गुडगाँव
ग्राम पंचायत	अकृषि	आर-83	0.0329	ग्राम पंचायत सांचौली
व्यक्तिगत	कृषि	53//6/1	0.0174	दुलीचन्द, करण सिंह पुत्रान धर्मा पुत्र रुपचंद हर दो समभाग मलेरना तह बलभगद
व्यक्तिगत	कृषि	53//6/2	0.0242	दुलीचन्द, करण सिंह पुत्रान धर्मा पुत्र रुपचंद हर दो समभाग मलेरना तह बलभगद
व्यक्तिगत	कृषि	53//7	0.0300	दुलीचन्द, करण सिंह पुत्रान धर्मा हर दो समभाग
व्यक्तिगत	कृषि	53//8	0.0085	दुलीचन्द, करण सिंह पुत्रान धर्मा हर दो समभाग
व्यक्तिगत	कृषि	53//11/1	0.0046	अमीचन्द, प्रेमपाल, ओमबीर पुत्रान पालाराम हर तीन समभाग
व्यक्तिगत	कृषि	53//11/2	0.0244	स्वायाराम पुत्र गाडूराम पुत्र चिम्मनदास
व्यक्तिगत	कृषि	53//12	0.0082	स्वायाराम पुत्र गाडूराम पुत्र चिम्मनदास
व्यक्तिगत	कृषि	53//27	0.0004	दुलीचन्द, करण सिंह पुत्रान धर्मा हर दो समभाग
व्यक्तिगत	कृषि	54//5/1	0.0261	मोहन लाल, सुशील कुमार समभाग 4/5 भाग पुत्रान व श्रीमति ईश्वरी देवी 1/5 भाग विधवा रामदिता वासी सोहना
व्यक्तिगत	कृषि	54//5/2	0.0123	अतरचन्द पुत्र शानूराम पुत्र नानक राम वासी केथल खाना काश्त सुमन पुत्र गफन पुत्र अर्जुन गैर मौरूसी
व्यक्तिगत	कृषि	54//5/3	0.0138	सतपाल पुत्र तेजू राम 1/2 भाग, विजय कुमार पुत्र ईश्वर दास 1/3 भाग, गोरव अरोड़ा पुत्र विजय कुमार 1/6 भाग
व्यक्तिगत	कृषि	54//6	0.0015	सतपाल पुत्र तेजू राम पुत्र ईश्वर दास 160/320 भाग, विजय कुमार पुत्र तीर्थ दास 107/320 भाग, गोरव अरोड़ा पुत्र विजय कुमार 53/320 भाग
व्यक्तिगत	कृषि	54//7	0.0389	सतपाल पुत्र तेजू राम पुत्र ईश्वर दास 160/320 भाग, विजय कुमार पुत्र तीर्थ दास 107/320 भाग, गोरव अरोड़ा पुत्र विजय कुमार 53/320 भाग
व्यक्तिगत	कृषि	54//8	0.0842	कबीर उर्फ हब्बू, शमशुदीन, जमील, शमील, नजीर पुत्रान फिरोजी पुत्र इशब समभाग 5/36 भाग, शब्बीर पुत्र फिरोजी 7/36 भाग, अली मोहमद साहबू पुत्रान हसन मोहम्मद समभाग 1/9 भाग, वकील अहमद पुत्र हारुन 1/18 भाग, अहमदजान हारुन पुत्रान ईसब समभाग 1/3 भाग, श्रीमति फईदन पुत्री हमीदा 1/6 भाग, श्रीमति फईदन पट्टा देहिन्दा इकलास मुस्ताक साहिल पुत्रान शब्बीर समभाग 1/6 भाग पट्टा गिरिन्दा सुशील कुमार, मोहन लाल पुत्रान रामदत्ता 4/5 भाग व ईश्वर देवी विधवा रामदत्ता 1/5 भाग मोहन लाल, सुशील कुमार पुत्रान रामदत्ता समभाग,
व्यक्तिगत	कृषि	54//9/1	0.0156	मोहन लाल, सुशील कुमार समभाग 4/5 भाग पुत्रान व श्रीमति ईश्वरी देवी 1/5 भाग विधवा रामदिता वासी सोहना
व्यक्तिगत	कृषि	54//9/2	0.0618	मोहन लाल, सुशील कुमार समभाग 4/5 भाग पुत्रान व श्रीमति ईश्वरी देवी 1/5 भाग विधवा

(4) खुन्टपुरी	व्यक्तिगत	कृषि	54//10	0.0609	रामदिता वासी सोहना मोहन लाल, सुशील कुमार समभाग 4/5 भाग पुत्रान व श्रीमति ईश्वरी देवी 1/5 भाग विधवा रामदिता वासी सोहना
	ग्राम पंचायत	अकृषि	आर-84	0.0600	ग्राम पंचायत सांचौली
	व्यक्तिगत	कृषि	55//1	0.0958	सतपाल पुत्र तेजू राम 1/2 भाग, ईश्वर दास पुत्र तीर्थ दास 1/3 भाग, गोरव अरोड़ा पुत्र विजय कुमार 1/6 भाग रहिनान श्रीमति बसन्दी बाई विधवा व आशा नन्द पुत्र बसन्दा राम समभाग मुश्तहनान
	व्यक्तिगत	कृषि	55//2/1	0.1446	साक्षी बहल पुत्र रमेश बहल 3/4 भाग, अंश बहल पुत्र रमेशबहल 1/4 भाग
	व्यक्तिगत	कृषि	55//2/2	0.0165	साक्षी बहल पुत्र रमेश बहल 3/4 भाग, अंश बहल पुत्र रमेशबहल 1/4 भाग
	व्यक्तिगत	कृषि	55//3	0.1616	रविन्द्र कुमार पुत्र ललित जिन्दल
	व्यक्तिगत	कृषि	55//4	0.1888	प्रियंका बहल, प्रिनिता बहल पुत्रीयान रमेश बहल हर दो समभाग
	व्यक्तिगत	कृषि	9//7/1	0.0377	श्रीमति असमा राशिद पुत्री राशिद जमीर
	ग्राम पंचायत	अकृषि	36	0.1288	ग्राम पंचायत देह
	व्यक्तिगत	कृषि	10//10	0.0190	देवेन्द्र पुत्र सरदाराम पुत्र चुन्नीलाल
	व्यक्तिगत	कृषि	10//3/1	0.1790	कुल 71 भाग, जिले, रतना, पुत्रान इन्द्राज पुत्र हेतराम हर दो समभाग 36 भाग, तेजपाल पुत्र शीशराम 24 भाग, देविन्द्र पुत्र सरदाराम पुत्र चुन्नीलाल 5 भाग, उमेश, महेश पुत्र धर्मवीर समभाग 4 भाग, व श्रीमति ओमवती विधवा धर्मवीर 2 भाग
	व्यक्तिगत	कृषि	10//4/1/2	0.0784	उमेश, महेश पुत्रान धर्मवीर 3/16 भाग, व श्रीमति ओमवती विधवा धर्मवीर पुत्र इन्द्राज 1/16 भाग, जगदीश, जिले, रतना पुत्रान इन्द्राज पुत्र हेतराम समभाग 3/4 भाग
	व्यक्तिगत	कृषि	10//4/2	0.0556	उमेश, महेश पुत्रान 3/16 भाग, व श्रीमति ओमवती विधवा धर्मवीर पुत्र इन्द्राज 1/16 भाग, जगदीश, जिले, रतना पुत्रान इन्द्राज समभाग 3/4 भाग
	ग्राम पंचायत	अकृषि	7//22	0.0011	ग्राम पंचायत देह
	व्यक्तिगत	कृषि	10//5	0.1523	उमेश, महेश पुत्रान 3/16 भाग, व श्रीमति ओमवती विधवा धर्मवीर पुत्र इन्द्राज 1/16 भाग, जगदीश, जिले, रतना पुत्रान इन्द्राज समभाग 3/4 भाग
	व्यक्तिगत	कृषि	11//1	0.1458	उमेश, महेश पुत्रान धर्मवीर 3/16 भाग, व श्रीमति ओमवती विधवा धर्मवीर पुत्र इन्द्राज 1/16 भाग, जगदीश, जिले, रतना पुत्रान इन्द्राज पुत्र हेतराम समभाग 3/4 भाग
	व्यक्तिगत	कृषि	11//2/1	0.1517	उमेश, महेश पुत्रान 3/16 भाग, व श्रीमति ओमवती विधवा धर्मवीर पुत्र इन्द्राज 1/16 भाग, जगदीश, जिले, रतना पुत्रान इन्द्राज समभाग 3/4 भाग
	ग्राम पंचायत	अकृषि	11//3	0.1426	ग्राम पंचायत देह
	व्यक्तिगत	कृषि	11//5	0.1192	भगवान सहाय पुत्र केवल पुत्र हरिकिशन 1/2 भाग लेखरामपुत्र नन्दु 1/2 भाग
	व्यक्तिगत	कृषि	12//1	0.0931	लेखराम पुत्र नन्दु 71/238 भाग, भगवान सहाय पुत्र केवलपुत्र हरिकिशन 1/2 भाग, महाराम पुत्र शीश राम 24/119 भाग
	ग्राम पंचायत	अकृषि	11//4	0.1310	ग्राम पंचायत देह
	व्यक्तिगत	कृषि	12//2	0.0596	लखमी, ज्ञानचन्द, राजेन्द्र पुत्रान चैतराम पुत्र शिवसिंह हर तीन समभाग 1/4 भाग, श्रीमति

					सुनीता पत्नी राजपाल पुत्र दुलीचन्द 20/393 भाग, श्रीमति सत्यवती पत्नी रोहताश पुत्र दुलीचन्द 1/393 भाग, बन्शी पुत्र ख्याली 11/1572 भाग श्रीमति सरला देवी पत्नी चन्द्रपाल पुत्र दुलीचन्द 49/786 भाग, अनीता पत्नी रतन सिंह पुत्र दुलीचन्द 97/1572 भाग, रोहताश पुत्र दुलीचन्द पुत्र बन्शी 97/1572 भाग, धनसिंह पुत्र दुलीचन्द पुत्र बन्शी 97/1572 भाग, अशोक कुमार, विनोद कुमार, प्रविन्द्र कुमार पुत्रान व मधुबाला पुत्री व श्रीमति ईन्द्रवती विधवा ज्ञानचन्द पुत्र मंगतु हर पांच समभाग 589/1572 भाग, सतबीर पुत्र दुलीचन्द पुत्र बन्शी 101/1572 भाग, कोशलया पत्नी ओमप्रकाश 5/1572 भाग वासी देह
	व्यक्तिगत	कृषि	12//4	0.0078	टेकराम पुत्र गोकल पुत्र नारायण सिंह
	ग्राम पंचायत	अकृषि	5//23	0.0392	ग्राम पंचायत देह
	व्यक्तिगत	कृषि	12//3	0.0261	चरण सिंह पुत्र श्रीचन्द्र पुत्र धनसिंह 49/379 भाग, वासी नाथूपुर, लखमी, ज्ञानचन्द, राजेन्द्र पुत्रान चेताराम पुत्र शिवसिंह हर तीन समभाग 95/379 भाग, श्रीमति सुनीता पत्नी राजपाल पुत्र दुलीचन्द 25/379 भाग, श्रीमति सरला देवी पत्नी चन्द्र पाल पुत्र दुलीचन्द 109/3032 भाग, अनीता पत्नी रतन सिंह पुत्र दुलीचन्द 109/3032 भाग, रोहताश पुत्र दुलीचन्द 109/3032 भाग, धन सिंह पुत्र दुली चन्द 109/3032 भाग, सतबीर पुत्र दुलीचन्द 27/758 भाग, अशोक कुमार, विनोद कुमार, प्रविन्द्र कुमार पुत्रान व मधुबाला पुत्री व श्रीमति इन्द्रवती विधवा ज्ञानचन्द पुत्र मंगतु हर पांच समभाग 142/379 भाग वासी देह
	व्यक्तिगत	कृषि	5//24	0.0635	उदय राम पुत्र गोकल टेकराम पुत्र गोकल
	व्यक्तिगत	कृषि	5//25	0.0594	उदय राम पुत्र गोकल टेकराम पुत्र गोकल
	व्यक्तिगत	कृषि	4//21/1	0.0478	वेद राम पुत्र गोकल पुत्र नारायण
	व्यक्तिगत	कृषि	4//22	0.0174	सिहराम पुत्र गोकल पुत्र नारायण सिंह
	ग्राम पंचायत	अकृषि	13//2	0.0125	ग्राम पंचायत देह
	व्यक्तिगत	कृषि	4//18	0.0584	शेर सिंह पुत्र चिरन्जी
	ग्राम पंचायत	अकृषि	आर-41	0.0030	ग्राम पंचायत देह
	व्यक्तिगत	कृषि	4//24	0.0125	सिहराम पुत्र गोकल पुत्र नारायण सिंह
	व्यक्तिगत	कृषि	4//16	0.0226	गिरार्ज पुत्र सुखराम पुत्र नन्हे
(5) सिलानी	व्यक्तिगत	कृषि	5//13	0.0264	श्रीमति असमा वासिद पत्नी आसिफ जफर पुत्र जफर निवासीगुडगांव 1133/1613 भाग, श्रीमति रजनी गुप्ता पत्नी अनिल गुप्ता नि0 मेरठ 320/1613 भाग, श्रीमति तरंग चौधरी पत्नी अनिल चौधरी निवासी गुडगांव 160/1613 भाग
	ग्राम पंचायत	अकृषि	5//7	0.1411	ग्राम पंचायत देह
	ग्राम पंचायत	अकृषि	10//15	0.0888	ग्राम पंचायत देह
	ग्राम पंचायत	अकृषि	10//17	0.0094	ग्राम पंचायत देह
	व्यक्तिगत	कृषि	5//14	0.0022	श्रीमति असमा वासिद पत्नी आसिफ जफर पुत्र जफर निवासीगुडगांव 1133/1613 भाग, श्रीमति रजनी गुप्ता पत्नी अनिल गुप्ता नि0 मेरठ 320/1613 भाग, श्रीमति तरंग चौधरी पत्नी अनिल चौधरी निवासी गुडगांव 160/1613 भाग
	ग्राम पंचायत	अकृषि	9//11	0.1187	ग्राम पंचायत देह
	ग्राम पंचायत	अकृषि	9//12	0.1379	ग्राम पंचायत देह
	ग्राम पंचायत	अकृषि	9//13	0.1270	ग्राम पंचायत देह

		ग्राम पंचायत	अकृषि	9//14	0.1143	ग्राम पंचायत देह
		व्यक्तिगत	कृषि	5//6	0.1559	श्रीमति असमा वासिद पत्नी आसिफ जफर पुत्र जफर नईम निवासी 145 होम अपार्टमेंट गुडगांव 1133/1613 भाग, श्रीमति रजनी गुप्ता पत्नी अनिल पुत्र मोहन गुप्ता, जसवन्त सुगर मिल नि० मेरठ 320/1613 भाग, श्रीमति तरंग चौधरी पत्नी अनिल चौधरी निवासी गुडगांव 160/1613 भाग
		ग्राम पंचायत	अकृषि	9//15/1	0.0361	ग्राम पंचायत देह
		ग्राम पंचायत	अकृषि	9//15/2	0.0266	पंचायत देह
		ग्राम पंचायत	अकृषि	9//15/3	0.0366	ग्राम पंचायत देह
		ग्राम पंचायत	अकृषि	आर-106	0.0313	ग्राम पंचायत देह
		व्यक्तिगत	कृषि	4//9/1	0.0831	संजीव कुमार पुत्र धनश्याम दास 15/72 भाग, दीपक गुप्तापुत्र रामनारायण गुप्ता 15/72 भाग, अशोक कुमार पुत्र बी० एल गुप्ता 24/72 भाग, मैसर्ज करना स्टेट एण्ड डवलपर्स 18/72 भाग
		ग्राम पंचायत	अकृषि	8//11	0.0333	ग्राम पंचायत देह
		ग्राम पंचायत	अकृषि	8//12	0.0326	ग्राम पंचायत देह
		ग्राम पंचायत	अकृषि	8//13	0.0635	ग्राम पंचायत देह
		व्यक्तिगत	कृषि	4//9/2/1	0.0377	मैसर्ज जे०के० एल० पावर इंजिनियरिंग प्रा० लि० खाना काश्त भरता पुत्र फूल सिंह पुत्र धनीराम गैरमौरूसी
		ग्राम पंचायत	अकृषि	8//14	0.0510	ग्राम पंचायत देह
		ग्राम पंचायत	अकृषि	7//14	0.0131	ग्राम पंचायत देह
		ग्राम पंचायत	अकृषि	7//15	0.0255	ग्राम पंचायत देह
		ग्राम पंचायत	अकृषि	6//11	0.0398	ग्राम पंचायत देह
		व्यक्तिगत	कृषि	4//9/2/3	0.0027	मैसर्ज जे०के० एल० पावर इंजिनियरिंग प्रा० लि० खाना काश्त भरता पुत्र फूल सिंह पुत्र धनीराम गैरमौरूसी
		ग्राम पंचायत	अकृषि	6//9	0.0211	ग्राम पंचायत देह
		ग्राम पंचायत	अकृषि	6//12	0.0422	ग्राम पंचायत देह
		ग्राम पंचायत	अकृषि	6//8	0.0209	ग्राम पंचायत देह
		ग्राम पंचायत	अकृषि	6//13	0.0510	ग्राम पंचायत देह
		व्यक्तिगत	कृषि	4//10/1	0.0021	बीना गुप्ता पत्नी हरिओम गुप्ता नि० 15/1 कालका जी एक्सटेन्सन नई दिल्ली 2/3 भाग, मैसर्ज करना स्टेट एण्ड डवलपर्स 1/3 भाग
		ग्राम पंचायत	अकृषि	6//14	0.0783	ग्राम पंचायत देह
		ग्राम पंचायत	अकृषि	6//15	0.0905	ग्राम पंचायत देह
		ग्राम पंचायत	अकृषि	5//11	0.0863	ग्राम पंचायत देह
		ग्राम पंचायत	अकृषि	4//10/2	0.1665	पंचायत देह
		व्यक्तिगत	कृषि	4//8	0.1940	संजीव कुमार पुत्र धनश्याम दास 12/231 भाग, दीपक गुप्ता पुत्र रामनारायण गुप्ता 12/231 भाग, अशोक कुमार पुत्र बी० एल गुप्ता 77/231 भाग, मैसर्ज करना स्टेट एण्ड डवलपर्स 130/231 भाग
		ग्राम पंचायत	अकृषि	5//9	0.0162	ग्राम पंचायत देह
		ग्राम पंचायत	अकृषि	5//12	0.0562	ग्राम पंचायत देह
		ग्राम पंचायत	अकृषि	5//8	0.0889	ग्राम पंचायत देह
		व्यक्तिगत	कृषि	4//7	0.2809	संजीव कुमार पुत्र धनश्याम दास 8/39 भाग, दीपक गुप्तापुत्र रामनारायण गुप्ता 8/39 भाग, अशोक कुमार पुत्र बी० एल गुप्ता 13/39 भाग, मैसर्ज करना स्टेट एण्ड डवलपर्स 10/39 भाग
	(6) करनकी	व्यक्तिगत	कृषि	67//10	0.0267	जगबीर, बिजेन्द्र सिंह पुत्रान व श्रीमति शिव कौर विधवा विधू हर तीन समभाग 3/4 भाग, प्रताप,

					मुकेश पुत्रान जगबीर सिंह पुत्र विधू हर दो समभाग 1/8 भाग, भूपेश, नरवीर, कर्मबीर पुत्रान विजेन्द्र सिंह हर तीन समभाग 1/8 भाग
	व्यक्तिगत	कृषि	67//9	0.0009	जगबीर, बिजेन्द्र सिंह पुत्रान व श्रीमति शिव कौर विधवा विधू हर तीन समभाग 3/4 भाग, प्रताप, मुकेश पुत्रान जगबीर सिंह पुत्र विधू हर दो समभाग 1/8 भाग, भूपेश, नरवीर, कर्मबीर पुत्रान विजेन्द्र सिंह हर तीन समभाग 1/8 भाग
	व्यक्तिगत	कृषि	67//3	0.0084	जगबीर, बिजेन्द्र सिंह पुत्रान व श्रीमति शिव कौर विधवा विधू हर तीन समभाग 3/4 भाग, प्रताप, मुकेश पुत्रान जगबीर सिंह पुत्र विधू हर दो समभाग 1/8 भाग, भूपेश, नरवीर, कर्मबीर पुत्रान विजेन्द्र सिंह हर तीन समभाग 1/8 भाग
	ग्राम पंचायत	अकृषि	61//10	0.1833	ग्राम पंचायत करनकी
	व्यक्तिगत	कृषि	67//4	0.0038	जगबीर, बिजेन्द्र सिंह पुत्रान 1/2 भाग व श्रीमति शिव कौर विधवा विधू 1/4 भाग, प्रताप, मुकेश पुत्रान जगबीर सिंह पुत्र विधू हर दो समभाग 1/8 भाग, भूपेश, नरवीर, कर्मबीर पुत्रान विजेन्द्र सिंह हर तीन समभाग 1/8 भाग
	व्यक्तिगत	कृषि	67//5/2	0.0090	जगबीर, बिजेन्द्र सिंह पुत्रान व श्रीमति शिव कौर विधवा विधू हर तीन समभाग 3/4 भाग, प्रताप, मुकेश पुत्रान जगबीर सिंह पुत्र विधू हर दो समभाग 1/8 भाग, भूपेश, नरवीर, कर्मबीर पुत्रान विजेन्द्र सिंह हर तीन समभाग 1/8 भाग
	व्यक्तिगत	कृषि	65//21	0.0019	आशाराम टेकराम एजुकेशनल ट्रस्ट एफ 41 कटवारिया सराय नई दिल्ली
	व्यक्तिगत	कृषि	65//22	0.0121	आशाराम टेकराम एजुकेशनल ट्रस्ट एफ 41 कटवारिया सराय नई दिल्ली
	व्यक्तिगत	कृषि	65//23	0.0223	आशाराम टेकराम एजुकेशनल ट्रस्ट एफ 41 कटवारिया सराय नई दिल्ली
	व्यक्तिगत	कृषि	65//24	0.0321	नानकचन्द पुत्र बादाम सिंह पुत्र हुकम सिंह वासी देह
	व्यक्तिगत	कृषि	65//25	0.0100	योगराज, देविन्द्र, विनाद कुमार पुत्रान राजेन्द्र हर तीन समभाग
	व्यक्तिगत	कृषि	64//20	0.0057	श्रीमति धर्मवती पत्नी मुख्त्यार सिंह पुत्र अतर सिंह खाना काश्त मुख्त्यार सिंह पुत्र अतर पट्टेदार
	ग्राम पंचायत	अकृषि	64//19	0.0434	पंचायत देह
	ग्राम पंचायत	अकृषि	आर-85	0.0008	ग्राम पंचायत करनकी रास्ता
	व्यक्तिगत	कृषि	64//18	0.0615	श्रीमति कमला पत्नी रमन वासी देह
	व्यक्तिगत	कृषि	64//17	0.0571	जगदीश, औम प्रकाश, सतबीर, विरेन्द्र पुत्रान रामसरूप पुत्र अडीमल हर चार समभाग वासीयान देह
	व्यक्तिगत	कृषि	64//16	0.0574	जगदीश, औम प्रकाश, सतबीर, विरेन्द्र पुत्रान रामसरूप पुत्र अडीमल हर चार समभाग वासीयान देह
	व्यक्तिगत	कृषि	63//20	0.0446	जगबीर, बिजेन्द्र सिंह पुत्रान व श्रीमति शिव कौर विधवा विधू हर तीन समभाग 3/4 भाग, प्रताप, मुकेश पुत्रान जगबीर सिंह पुत्र विधू हर दो समभाग 1/8 भाग, भूपेश, नरवीर, कर्मबीर पुत्रान विजेन्द्र सिंह हर तीन समभाग 1/8 भाग
	ग्राम पंचायत	कृषि	61//9	0.1924	ग्राम पंचायत करनकी
	व्यक्तिगत	कृषि	63//12	0.0076	जगबीर, बिजेन्द्र सिंह पुत्रान व श्रीमति शिव कौर विधवा विधू हर तीन समभाग 3/4 भाग, प्रताप, मुकेश पुत्रान जगबीर सिंह पुत्र विधू हर दो समभाग 1/8 भाग, भूपेश, नरवीर, कर्मबीर

				पुत्रान विजेन्द्र सिंह हर तीन समभाग 1/8 भाग
व्यक्तिगत	कृषि	63//13	0.0547	जगबीर, बिजेन्द्र सिंह पुत्रान व श्रीमति शिव कौर विधवा विधू हर तीन समभाग 3/4 भाग, प्रताप, मुकेश पुत्रान जगबीर सिंह पुत्र विधू हर दो समभाग 1/8 भाग, भूपेश, नरवीर, कर्मबीर पुत्रान विजेन्द्र सिंह हर तीन समभाग 1/8 भाग
ग्राम पंचायत	अकृषि	61//8	0.0590	ग्राम पंचायत करनकी
व्यक्तिगत	कृषि	63//14/1	0.0498	जगबीर, बिजेन्द्र सिंह पुत्रान व श्रीमति शिव कौर विधवा विधू हर तीन समभाग 3/4 भाग, प्रताप, मुकेश पुत्रान जगबीर सिंह पुत्र विधू हर दो समभाग 1/8 भाग, भूपेश, नरवीर, कर्मबीर पुत्रान विजेन्द्र सिंह हर तीन समभाग 1/8 भाग
व्यक्तिगत	कृषि	63//15	0.0359	श्रीमति बीना देवी पत्नी संजीव कुमार पुत्र कृष्ण कुमार
ग्राम पंचायत	अकृषि	63//26	0.0227	ग्राम पंचायत करनकी
व्यक्तिगत	कृषि	62//11	0.0854	महेन्द्र सिंह, मुख्तार सिंह पुत्रान अतर सिंह पुत्र हुकम सिंह खाना काश्त महेन्द्र सिंह आदि हिस्सेदार बायान मुकेश कुमार, राजेश कुमार पुत्रान रोहताश मुश्त्रीयान
व्यक्तिगत	कृषि	62//12	0.0692	मुकेश कुमार, राकेश कुमार पुत्रान रोहताश सिंह हर दो समभाग
व्यक्तिगत	कृषि	62//8	0.0379	जगबीर सिंह आदि मालकान बदस्तूर खाना काश्त मैसर्ज डालर्स हिस्सेदार चालु बाया कपिल देव पुत्र सुरज पंकाश निवासी सुखरेल
व्यक्तिगत	कृषि	62//7	0.0693	जगबीर, विरेन्द्र सिंह पुत्रान व श्रीमति शिव कौर विधवा विधू गंगाबख्श हर तीन समभाग 1/16 भाग, सरदाराम, सुमेर पुत्रान व श्रीमति जसरती विधवा गिराज पुत्र पोपल 1/96 भाग, मैसर्ज लफार्डनन्स लि0 1/12 भाग, करतार सिंह शौदान सिंह पुत्रान सुलतान सिंह हर दो समभाग 5/32 भाग, सतवीर पुत्र टेकराम 163/784 भाग, नानक चन्द पुत्र बादाम सिंह 1/16 भाग, महेन्द्र सिंह, मुख्तार सिंह हर दो समभाग 1/8 भाग, प्रताप, मुकेश पुत्रान जगबीर सिंह पुत्र विधू हर दो समभाग 1/96 भाग, भूपेश, नरवीर, कर्मबीर पुत्रान विजेन्द्र पुत्र विधू हर तीन समभाग 1/96 भाग, वेदपाल पुत्र सोहनलाल पुत्र अडीमल 1/96 भाग, सहदेव पुत्र जसलाल पुत्र अडीमल 1/96 भाग, अनिल भल्ला पुत्र राजकुमार भल्ला 1/48 भाग, श्रीमति हरमन पत्नी संजय पुत्र हुकम सिंह 33/784 भाग, योगराज, देविन्द्र, विनोद, कुमार पुत्रान राजेन्द्र सिंह समभाग 1/16 भाग, जगदीश, औम प्रकाश, सतबीर, बिरेन्द्र सिंह पुत्रान रामसरूप समभाग 1/48 भाग, अमित कुमार, प्रीत कुमार पुत्रान व श्रीमति कान्ता कुमारी विधवा रोहताश सिंह हर तीन समभाग 1/64 भाग, सुरेन्द्र कुमार, देविन्द्र कुमार, रविन्द्र कुमार पुत्रान उदय सिंह हर तीन समभाग 15/192 भाग, प्रवीन, प्रेमजीत पुत्रान देशराज पुत्र पोपल हर दो समभाग 1/96 भाग
ग्राम पंचायत	अकृषि	59//4	0.0482	ग्राम पंचायत करनकी
व्यक्तिगत	कृषि	62//14/2	0.0268	जगबीर, विरेन्द्र सिंह पुत्रान व श्रीमति शिव कौर विधवा विधू हर तीन समभाग 1/16 भाग, सरदाराम, सुमेर पुत्रान व श्रीमति जसरती विधवा गिराज पुत्र पोपल 1/96 भाग, मैसर्ज लफार्डनन्स लि0 1/12 भाग, करतार सिंह शौदान सिंह पुत्रान सुलतान सिंह हर दो समभाग 5/32 भाग, सतवीर पुत्र टेकराम 163/784 भाग, नानक चन्द

					पुत्र बादाम सिंह 1/16 भाग, महेन्द्र सिंह, मुख्तयार सिंह हर दो समभाग 1/8 भाग, प्रताप, मुकेश पुत्रान जगवीर सिंह पुत्र वीधू हर दो समभाग 1/96 भाग, भूपेश, नरवीर, कर्मवीर पुत्रान विजेन्द्र पुत्र वीधू हर तीन समभाग 1/96 भाग, वेदपाल पुत्र सोहनलाल पुत्र अडीमल 1/96 भाग, सहदेव पुत्र जसलाल पुत्र अडीमल 1/96 भाग, अनिल भल्ला पुत्र राजकुमार भल्ला 1/48 भाग, श्रीमति हरमन पत्नी संजय पुत्र हुकम सिंह 33/784 भाग, योगराज, देविन्द्र, विनोद, कुमार पुत्रान राजेन्द्र सिंह समभाग 1/16 भाग, जगदीश, औम प्रकाश, सतबीर, बिरेन्द्र सिंह पुत्रान रामसरूप समभाग 1/48 भाग, अमित कुमार, प्रीत कुमार पुत्रान व श्रीमति कान्ता कुमारी विधवा रोहताश सिंह हर तीन समभाग 1/64 भाग, सुरेन्द्र कुमार, देविन्द्र कुमार, रविन्द्र कुमार पुत्रान उदय सिंह हर तीन समभाग 15/192 भाग, प्रवीन, प्रेमजीत पुत्रान देशराज पुत्र पोपल हर दो समभाग 1/96 भाग
	व्यक्तिगत	कृषि	62//6	0.1585	जगबीर, विरेन्द्र सिंह पुत्रान व श्रीमति शिव कौर विधवा विधू हर तीन समभाग 1/16 भाग, सरदाराम, सुमेर पुत्रान व श्रीमति जसरती विधवा गिर्राज पुत्र पोपल 1/96 भाग, मैसर्ज लफार्डनन्स लि0 1/12 भाग, करतार सिंह शौदान सिंह पुत्रान सुलतान सिंह हर दो समभाग 5/32 भाग, सतवीर पुत्र टेकराम 163/784 भाग, नानक चन्द पुत्र बादाम सिंह 1/16 भाग, महेन्द्र सिंह, मुख्तयार सिंह हर दो समभाग 1/8 भाग, प्रताप, मुकेश पुत्रान जगवीर सिंह पुत्र वीधू हर दो समभाग 1/96 भाग, भूपेश, नरवीर, कर्मवीर पुत्रान विजेन्द्र पुत्र वीधू हर तीन समभाग 1/96 भाग, वेदपाल पुत्र सोहनलाल पुत्र अडीमल 1/96 भाग, सहदेव पुत्र जसलाल पुत्र अडीमल 1/96 भाग, अनिल भल्ला पुत्र राजकुमार भल्ला 1/48 भाग, श्रीमति हरमन पत्नी संजय पुत्र हुकम सिंह 33/784 भाग, योगराज, देविन्द्र, विनोद, कुमार पुत्रान राजेन्द्र सिंह समभाग 1/16 भाग, जगदीश, औम प्रकाश, सतबीर, बिरेन्द्र सिंह पुत्रान रामसरूप समभाग 1/48 भाग, अमित कुमार, प्रीत कुमार पुत्रान व श्रीमति कान्ता कुमारी विधवा रोहताश सिंह हर तीन समभाग 1/64 भाग, सुरेन्द्र कुमार, देविन्द्र कुमार, रविन्द्र कुमार पुत्रान उदय सिंह हर तीन समभाग 15/192 भाग, प्रवीन, प्रेमजीत पुत्रान देशराज पुत्र पोपल हर दो समभाग 1/96 भाग
	ग्राम पंचायत	अकृषि	59//5	0.0311	ग्राम पंचायत करनकी
	व्यक्तिगत	कृषि	58//1	0.0157	कुल 139 भागश्रीमति अमीता मेहरा पत्नी विनोद मेहरा 11/139 भाग, श्रीमति दीपा सिब्लल पत्नी विरेन्द्र सिब्लल 3/139 भाग, श्रीमति वन्दना खन्ना 9/139 भाग, गोपाल, नरेन्द्र पुत्रान व श्रीमति संगीता पुत्री व श्रीमति ग्यावती विधवा व मख्खन देवी माता सतपाल हर पांच समभाग 13/139 भाग, सतीश खन्ना पुत्र बृजकिशोर व श्रीमति अर्चना खन्ना पत्नी सतीश खन्ना हर दो समभाग 8/139 भाग, गोतम शाह पुत्र रविन्द्र कुमार 4/139 भाग, श्रीमति मधुरिमा मुखर्जी पत्नी गोतम शाह 4/139 भाग, जतिन्द्र अनेजा पुत्र एच0डी0 अनेजा व श्रीमति सलोनी गुप्ता पत्नी जतिन्द्र

					अनेजा हर दो समभाग 18/139 भाग, जे एम कुमार पुत्र मनोहरलाल 4/139 भाग, रामराव राणा पुत्र नसीबचन्द राणा व कैलाश रानी पत्नी रामूराव समभाग 9/139 भाग, उदय सुरी पुत्र जे0 एम0 सुरी व श्री मति कुमारी नेहा सूरी पुत्री जे0 एल0 सूरी समभाग 9/139 भाग, श्रीमति बीरमति पत्नी लक्ष्मण पुत्र मदन लाल 4/139 भाग, अरुण धोष पुत्र आर0 पी0 धोष व श्रीमति संचीता धोष पत्नी अरुण धोष समभाग 9/139 भाग, प्रहलाद, पदम, नरेश, जय प्रकाश पुत्रान किशन पुत्र गणपत समभाग 4/139 भाग, रितिक पुत्र व भारती शर्मा पुत्री व मीना कुमारी विधवा दिनेश कुमार समभाग 1/139 भाग, श्रीमति पायल मित्तल तिवारी पत्नी आशीष तिवारी पुत्र श्याम सुन्दर लाल 9/139 भाग, महीपाल पुत्र नाहर सिंह 14/139 भाग राजेश मेदीरता पुत्र ए0 पी0 मेदीरता 4/139 भाग, श्रीमति सुशीला देवी पत्नी राम निवास यादव 1/139 भाग, श्रीमति जसवन्ती पत्नी रामफल यादव व श्रीमति सुनीता पत्नी नन्दकिशोर हर दो समभाग 1/139 भाग
	व्यक्तिगत	कृषि	55//22	0.0013	कुल 139 भाग श्रीमति अमीता मेहरा पत्नी विनोद मेहरा 11/139 भाग, श्रीमति दीपा सिब्ल पत्नी विरेन्द्र सिब्ल 3/139 भाग, श्रीमति वन्दना खन्ना 9/139 भाग, गोपाल, नरेन्द्र पुत्रान व श्रीमति संगीता पुत्री व श्रीमति ग्यावती विधवा व मख्खन देवी माता सतपाल हर पांच समभाग 13/139 भाग, सतीश खन्ना पुत्र बृजकिशोर व श्रीमति अर्चना खन्ना पत्नी सतीश खन्ना हर दो समभाग 8/139 भाग, गोतम शाह पुत्र रविन्द्र कुमार 4/139 भाग, श्रीमति मधुरिमा मुखर्जी पत्नी गोतम शाह 4/139 भाग, जतिन्द्र अनेजा पुत्र एच0डी0 अनेजा व श्रीमति सलोनी गुप्ता पत्नी जतिन्द्र अनेजा हर दो समभाग 18/139 भाग, जे एम कुमार पुत्र मनोहरलाल 4/139 भाग, रामराव राणा पुत्र नसीबचन्द राणा व कैलाश रानी पत्नी रामूराव समभाग 9/139 भाग, उदय सुरी पुत्र जे0 एम0 सुरी व श्री मति कुमारी नेहा सूरी पुत्री जे0 एल0 सूरी समभाग 9/139 भाग, श्रीमति बीरमति पत्नी लक्ष्मण पुत्र मदन लाल 4/139 भाग, अरुण धोष पुत्र आर0 पी0 धोष व श्रीमति संचीता धोष पत्नी अरुण धोष समभाग 9/139 भाग, प्रहलाद, पदम, नरेश, जय प्रकाश पुत्रान किशन पुत्र गणपत समभाग 4/139 भाग, रितिक पुत्र व भारती शर्मा पुत्री व मीना कुमारी विधवा दिनेश कुमार समभाग 1/139 भाग, श्रीमति पायल मित्तल तिवारी पत्नी आशीष तिवारी पुत्र श्याम सुन्दर लाल 9/139 भाग, महीपाल पुत्र नाहर सिंह 14/139 भाग राजेश मेदीरता पुत्र ए0 पी0 मेदीरता 4/139 भाग, श्रीमति सुशीला देवी पत्नी राम निवास यादव 1/139 भाग, श्रीमति जसवन्ती पत्नी रामफल यादव व श्रीमति सुनीता पत्नी नन्दकिशोर हर दो समभाग 1/139 भाग
	व्यक्तिगत	कृषि	55//23	0.0276	प्रभातीलाल पुत्र इवाला शाह 1/10 भाग, श्रीमति रन्जना खण्डेवाल पत्नी विष्णू खण्डेवाल 1/10 भाग, श्रीमति निम्मी धीर पत्नी सुरेश धीर 1/10 भाग, सतीश पुत्र गोरी शंकर व श्रीमति अनीता सेठ पत्नी सतीश सेठ समभाग 1/10 भाग,

						अरुण धोष पुत्र आर० पी० धोष व श्रीमति सन्चीता धोष पत्नी अरुण धोष समभाग 1/10 भाग, श्रीमति मुक्ता रूंगटा पत्नी विपुल रूंगटा पुत्र एस के रूंगटा समभाग 1/10 भाग, श्रीमति निरूपमा रंजन पत्नी लोक रंजन 128/1600 भाग, श्री निवास किंलम्बी पुत्र रंगा मठमय व श्रीमति विनति काईतया किंलम्बी पत्नी श्री निवास किंलम्बी समभाग 1/15 भाग, योगीन्द्र पुत्र सतबीर सिंह व जितेन्द्र सिंह, अनूप सिंह, अरविन्द पुत्रान रणबीर व उमेश सिंह चेतन सिंह पुत्रान ओम प्रकाश 1/30 भाग, श्रीमति बीरवती पत्नी लक्ष्मण 9/1600 भाग पहलाद, पदम, नरेश, जयप्रकाश पुत्रान श्री किशन समभाग 7/1600 भाग, रितिक पुत्र व भारती पुत्री व श्रीमति मीना विधवा दिनेश कुमार पुत्र श्री किशन समभाग 1/100 भाग, मैसर्ज एन० के० एल० माईनिंग लि० 1/5 भाग
		व्यक्तिगत	कृषि	55//24	0.0598	रविन्द्र नाथ पुत्र ईश्वर दास
		व्यक्तिगत	कृषि	55//25	0.0224	कुल 139 भागश्रीमति अमीता मेहरा पत्नी विनोद मेहरा 11/139 भाग, श्रीमति दीपा सिब्बल पत्नी विरेन्द्र सिब्बल 3/139 भाग, श्रीमति वन्दना खन्ना 9/139 भाग, गोपाल, नरेन्द्र पुत्रान व श्रीमति संगीता पुत्री व श्रीमति ग्यावती विधवा व मख्खन देवी माता सतपाल हर पांच समभाग 13/139 भाग, सतीश खन्ना पुत्र बृजकिशोर व श्रीमति अर्चना खन्ना पत्नी सतीश खन्ना हर दो समभाग 8/139 भाग, गोतम शाह पुत्र रविन्द्र कुमार 4/139 भाग, श्रीमति मधुरिमा मुखर्जी पत्नी गोतम शाह 4/139 भाग, जतिन्द्र

						अनेजा पुत्र एच०डी० अनेजा व श्रीमति सलोनी गुप्ता पत्नी जतिन्द्र अनेजा हर दो समभाग 18/139 भाग, जे एम कुमार पुत्र मनोहरलाल 4/139 भाग, रामराव राणा पुत्र नसीबचन्द राणा व कैलाश रानी पत्नी रामूराव समभाग 9/139 भाग, उदय सुरी पुत्र जे० एम० सुरी व श्री मति कुमारी नेहा सूरी पुत्री जे० एल० सूरी समभाग 9/139 भाग, श्रीमति बीरमति पत्नी लक्ष्मण पुत्र मदन लाल 4/139 भाग, अरुण धोष पुत्र आर० पी० धोष व श्रीमति संचीता धोष पत्नी अरुण धोष समभाग 9/139 भाग, प्रहलाद, पदम, नरेश, जय प्रकाश पुत्रान किशन पुत्र गणपत समभाग 4/139 भाग, रितिक पुत्र व भारती शर्मा पुत्री व मीना कुमारी विधवा दिनेश कुमार समभाग 1/139 भाग, श्रीमति पायल मिस्तल तिवारी पत्नी आशीष तिवारी पुत्र श्याम सुन्दर लाल 9/139 भाग, महीपाल पुत्र नाहर सिंह 14/139 भाग राजेश मेदीरता पुत्र ए० पी० मेदीरता 4/139 भाग, श्रीमति सुशीला देवी पत्नी राम निवास यादव 1/139 भाग, श्रीमति जसवन्ती पत्नी रामफल यादव व श्रीमति सुनीता पत्नी नन्दकिशोर हर दो समभाग 1/139 भाग
--	--	--	--	--	--	---

[फा. सं. 2013/एलएमएल/II/12/8/ डब्ल्यू सी /423]

ओ. पी. सिंह, कार्यकारी निदेशक (भूमि और सुविधाएं-1)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December, 2013

S. O. 3891(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board), number S.O. 1415 (E), dated the 30th May, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 3rd June, 2013 and issued under section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project, namely, Western Dedicated Freight Corridor in District Gurgaon in the State of Haryana;

And, whereas, the substance of the said notification has been published in daily local newspapers, namely, Hindustan, dated the 27th June, 2013 and the Indian Express, dated the 27th June, 2013 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And, whereas, no objection has been received by the competent authority;

And, whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And, further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway Project namely, Western Dedicated Freight Corridor in District Gurgaon in the State of Haryana

Name of District : Gurgaon

Name of the Tehsil : Sohna

Serial Number	Name of Village	Type of Land	Nature of the Land	Survey Number/Block Number	Area (in Hectare)	Name of Land Owners
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	(1) Lakhawas	Private	Agriculture	62//12	0.0282	M/s Ajay Enterprises PVT LTD Nehru Place New Delhi
		Private	Agriculture	62//13	0.0877	M/s Ajay Enterprises PVT LTD Nehru Place New Delhi
		Private	Agriculture	62//18	0.0809	M/s Ajay Enterprises PVT LTD Nehru Place New Delhi
		Private	Agriculture	62//14	0.0740	M/s Nehru Place Hotels and Real Estate PVT LTD 2/3 Share, Basant singh S/o Daya Ram Alias dayiman 1/3 Share
		Private	Agriculture	62//15	0.0155	M/s Ajay Enterprises PVT LTD Nehru Place New Delhi
		Private	Agriculture	62//16	0.0537	M/s Nehru Place Hotels and Real Estate PVT LTD 2/3 Share, Basant singh S/o Daya Ram Alias Dayiman 1/3 Share
		Private	Agriculture	63//20	0.0080	M/s Ajay Enterprises PVT LTD Nehru Place New Delhi
		Private	Agriculture	63//19	0.0046	Mehar Chand S/o Ram Swaroop S/o Mohar Singh

						vasi Deh
		Private	Agriculture	63//18	0.0016	Mehar Chand S/o Ram Swaroop S/o Mohar Singh vasi Deh
		Private	Agriculture	64//11/1	0.0016	Prabhu Dayal, Krishan kumar S/o Dharam singh Alias Dharam chand S/o Ram Swaroop Eq. Share
		Private	Agriculture	64//11/2	0.0025	Total 120 Share Prakash Lal, Rohtash, Rajveer Sons & Smt. Sarla, Bimla, Gamla, Shimla Devi, Rajwati Daughters & Smt. Basanti Wd/o Nirmal S/o Girwar Eq. 20 Share, Amar chand S/o Girwar 10 Share, Mukesh, Vikram Sons & Smt. Sangeeta, Pinki Daughters of Smt. Daya Wd/o Ram Chand S/o Girwar 20 Share, Rambir S/o Tularam S/o Tohfa 70 Share.
		Private	Agriculture	64//12	0.0379	Prakash Lal, Rohtash, Rajveer Sons & Smt. Sarla, Bimla, Gamla, Shimla Devi, Rajwati Daughters & Smt. Basanti Wd/o Nirmal S/o Girwar Eq. Share 1/6 Share, Amar Chand S/o Girwar S/o Dungar 1/6 Share, Rambir S/o Tularam S/o Tohfa S/o Dungar 1/2 Share malkaan, kamal, veer singh S/o Fakeer Chand 1/6 Share
		Private	Agriculture	64//13	0.0688	Total 895 Share Prakash Lal, Rohtash, Rajveer Sons & Smt. Sarla, Bimla, Gamla, Shimla Devi, Rajwati Daughters & Smt. Basanti Wd/o Nirmal S/o Girwar Eq. 149 Share, Mukesh, Vikram Sons & Smt. Sangeeta, Pinki Daughters & Smt. Daya Wd/o Ram Chand S/o Girwar 69 Share, Rambir S/o Tularam S/o Tohfa 677 Share.
		Private	Agriculture	64//14	0.1093	Lakhmi Chand, Hukam Singh, Tara Chand, Ram kunwar, Shri Krishan, Om Prakash S/o Chhailu S/o Bhup singh Eq. share
		Private	Agriculture	64//15	0.1431	Lakhmi Chand, Hukam Singh, Tara Chand, Ram kunwar, Shri Krishan, Om Prakash Sons of Chhailu S/o Bhup singh Eq. share
		Private	Agriculture	65//11	0.1524	Mahabir, Satbir, Ranbir, Sher singh, Garibdas, Ved prakash,

						Suman S/o Chandgi Ram Eq. Share 7/8 Share, Naveen Son &Smt. Manni Devi Wd/o Dharambir S/o Chandgi Ram Eq. Share 1/8 Share
		Private	Agriculture	65//12	0.1543	Mahabir, Satbir, Ranbir, Sher singh, Garibdas, Ved prakash, Suman, S/o Chandgi RamS/o Tota Eq. Share 7/8 Share, Naveen Sons &Smt. Manni Devi Wd/o Dharambir S/o Chandgi Ram Eq. Share 1/8 Share
		Private	Agriculture	65//13	0.0549	Mahabir, Satbir, Ranbir, Sher singh, Garibdas, Ved prakash, Suman, S/o Chandgi RamS/o Tota Eq. Share 7/8 Share, Naveen Sons &Smt. Manni Devi Wd/o Dharambir S/o Chandgi Ram Eq. Share 1/8 Share
	(2) Ratikanawad (Barkhera)	Private	Agriculture	7//3	0.0988	Rajeev Son & Smt. Sneha Lata, Renu, Pooja Daughters &Smt. Sumantra Wd/o Satbir S/o Ratan Singh Eq. Share 8/290 Share, Johny, Nitin, Sons &Smt. Annu Daughter&Smt. Urmila Wd/o Satish Kumar S/o Ratan Singh Eq. Share 8/290 Share, Satpal S/o Ratan Singh 8/290 Share, Smt. Satwanti, Krishna Devi Daughters &Asharfi Wd/o Ratan singh Eq. Share 49/290 Share, Sumer Singh, Rajinder Sons &Smt. Kamlesh Kukki alias kamlesh, Santosh, Poonam Daughteres and Smt.Phool wati Wd/o Bharat singh alias Bhartu S/o Jag ram Eq. Share 97/290 Share, Parth 20/290 Share Sons &Smt. Deepanshi Daughter &Smt. Sunita Wd/o Sudhir S/o Sukh Ram Eq. Share 20/290 Share, Sudesh Kumar Son &Smt. Krishna Devi Wd/o Sukhram Eq. Share 80/290 Share
		Private	Agriculture	7//4	0.1443	Rajeev Son & Smt. Sneha Lata, Renu, PoojaDaughters &Smt. Sumantra Wd/o Satbir S/o Ratan Singh Eq. Share 8/290 Share, Johny, Nitin Sons &Smt. Annu Daughter&Smt. Urmila Wd/o Satish Kumar S/o Ratan Singh Eq. Share 8/290 Share, Satpal S/o Ratan

						Singh 8/290 Share, Smt. Satwanti, Krishna Devi Daughters & Asharfi Wd/o Ratan Singh Eq. Share 49/290 Share, Sumer Singh, Rajinder Sons & Smt. Kamlesh Kukki alias kamlesh, Santosh, Poonam Daughteres and Smt. Phool wati Wd/o Bharat singh alias Bhartu S/o Jag ram Eq. Share 97/290 Share, Parth 20/290 Share Sons & Smt. Deepanshi Daughter & Smt. Sunita Wd/o Sudhir S/o Sukh Ram Eq. Share 20/290 Share, Sudesh Kumar Son & Smt. Krishna Devi Wd/o Sukhram Eq. Share 80/290 Share
		Private	Agriculture	7//5	0.1294	Rajeev Son & Smt. Sneha Lata, Renu, Pooja Daughters & Smt. Sumantra Wd/o Satbir S/o Ratan Singh Eq. Share 8/290 Share, Johnny, Nitin, Sons & Smt. Annu Daughter & Smt. Urmila Wd/o Satish Kumar S/o Ratan Singh Eq. Share 8/290 Share, Satpal S/o Ratan Singh 8/290 Share, Smt. Satwanti, Krishna Devi Daughters & Asharfi Wd/o Ratan singh Eq. Share 49/290 Share, Sumer Singh, Rajinder Sons & Smt. Kamlesh Kukki alias kamlesh, Santosh, Poonam Daughteres and Smt. Phool wati Wd/o Bharat singh alias Bhartu S/o Jag ram Eq. Share 97/290 Share, Parth 20/290 Share Sons & Smt. Deepanshi Daughter & Smt. Sunita Wd/o Sudhir S/o Sukh Ram Eq. Share 20/290 Share, Sudesh Kumar Son & Smt. Krishna Devi Wd/o Sukhram Eq. Share 80/290 Share
		Private	Agriculture	8//1	0.1091	Rajeev Son & Smt. Sneha Lata, Renu, Pooja Daughters & Smt. Sumantra Wd/o Satbir S/o Ratan Singh Eq. Share 8/290 Share, Johnny, Nitin, Sons & Smt. Annu Daughter & Smt. Urmila Wd/o Satish Kumar S/o Ratan Singh Eq. Share 8/290 Share, Satpal S/o Ratan Singh 8/290 Share, Smt. Satwanti, Krishna Devi Daughters & Asharfi Wd/o

						Ratan singh Eq. Share 49/290 Share, Sumer Singh, Rajinder Sons & Smt. Kamlesh Kukki alias kamlesh, Santosh, Poonam Daughters and Smt. Phool wati Wd/o Bharat singh alias Bhartu S/o Jag ram Eq. Share 97/290 Share, Parth 20/290 Share Sons & Smt. Deepanshi Daughter & Smt. Sunita Wd/o Sudhir S/o Sukh Ram Eq. Share 20/290 Share, Sudesh Kumar Son & Smt. Krishna Devi Wd/o Sukhram Eq. Share 80/290 Share
		Private	Agriculture	8//2/1	0.0080	Rajeev Son & Smt. Sneha Lata, Renu, Pooja Daughters & Smt. Sumantra Wd/o Satbir S/o Ratan Singh Eq. Share 8/290 Share, Johnny, Nitin, Sons & Smt. Annu Daughter & Smt. Urmila Wd/o Satish Kumar S/o Ratan Singh Eq. Share 8/290 Share, Satpal S/o Ratan Singh 8/290 Share, Smt. Satwanti, Krishna Devi Daughters & Asharfi Wd/o Ratan singh Eq. Share 49/290 Share, Sumer Singh, Rajinder Sons & Smt. Kamlesh Kukki alias kamlesh, Santosh, Poonam Daughters and Smt. Phool wati Wd/o Bharat singh alias Bhartu S/o Jag ram Eq. Share 97/290 Share, Parth 20/290 Share Sons & Smt. Deepanshi Daughter & Smt. Sunita Wd/o Sudhir S/o Sukh Ram Eq. Share 20/290 Share, Sudesh Kumar Son & Smt. Krishna Devi Wd/o Sukhram Eq. Share 80/290 Share
		Private	Agriculture	8//2/2	0.0915	Rajeev Son & Smt. Sneha Lata, Renu, Pooja Daughters & Smt. Sumantra Wd/o Satbir S/o Ratan Singh Eq. Share 8/290 Share, Johnny, Nitin, Sons & Smt. Annu Daughter & Smt. Urmila Wd/o Satish Kumar S/o Ratan Singh Eq. Share 8/290 Share, Satpal S/o Ratan Singh 8/290 Share, Smt. Satwanti, Krishna Devi Daughters & Asharfi Wd/o Ratan singh Eq. Share 49/290 Share, Sumer Singh, Rajinder Sons & Smt. Kamlesh Kukki alias kamlesh,

						Santosh, Poonam Daughters and Smt. Phool wati Wd/o Bharat singh alias Bhartu S/o Jag ram Eq. Share 97/290 Share, Parth 20/290 Share Sons &Smt. Deepanshi Daughter &Smt. Sunita Wd/o Sudhir S/o Sukh Ram Eq. Share 20/290 Share, Sudesh Kumar Son &Smt. Krishna Devi Wd/o Sukhram Eq. Share 80/290 Share
	Gram Panchayat	Non-Agriculture	R-38	0.0054		Gram Panchayat (Rasta)
	Private	Agriculture	8//3	0.0845		Rajeev Son &Smt. Sneha Lata, Renu, Pooja Daughters &Smt. Sumantra Wd/o Satbir S/o Ratan Singh Eq. Share 8/290 Share, Johny, Nitin, Sons &Smt. Annu Daughter &Smt. Urmila Wd/o Satish Kumar S/o Ratan Singh Eq. Share 8/290 Share, Satpal S/o Ratan Singh 8/290 Share, Smt. Satwanti, Krishna Devi Daughters &Asharfi Wd/o Ratan singh Eq. Share 49/290 Share, Sumer Singh, Rajinder Sons &Smt. Kamlesh Kukki alias kamlesh, Santosh, Poonam Daughters and Smt. Phool wati Wd/o Bharat singh alias Bhartu S/o Jag ram Eq. Share 97/290 Share, Parth 20/290 Share Sons &Smt. Deepanshi Daughter &Smt. Sunita Wd/o Sudhir S/o Sukh Ram Eq. Share 20/290 Share, Sudesh Kumar Son &Smt. Krishna Devi Wd/o Sukhram Eq. Share 80/290 Share
	Private	Agriculture	8//4	0.0696		Rajeev Son &Smt. Sneha Lata, Renu, PoojaDaughters &Smt. Sumantra Wd/o Satbir S/o Ratan Singh Eq. Share 8/290 Share, Johny, Nitin, Sons &Smt. Annu Daughter&Smt. Urmila Wd/o Satish Kumar S/o Ratan Singh Eq. Share 8/290 Share, Satpal S/o Ratan Singh 8/290 Share, Smt. Satwanti, Krishna Devi Daughters &Asharfi Wd/o Ratan singh Eq. Share 49/290 Share, Sumer Singh, Rajinder Sons &Smt. Kamlesh Kukki alias kamlesh, Santosh, PoonamDaughters and Smt.

					Phool wati Wd/o Bharat singh alias Bhartu S/o Jag ram Eq. Share 97/290 Share, Parth 20/290 Share Sons & Smt. Deepanshi Daughter & Smt. Sunita Wd/o Sudhir S/o Sukh Ram Eq. Share 20/290 Share, Sudesh Kumar Son & Smt. Krishna Devi Wd/o Sukhram Eq. Share 80/290 ShareShare 80/290 Share
	Private	Agriculture	8//5	0.0546	Kirori S/o Bharta R/o Badshapur
	Private	Agriculture	9//1	0.0397	Raj Kumar, Jai Singh, Kirori, Zile Singh Sons & Smt. Maya, Poonam D/o BhartaS/o Kartam 6/9 Share, Smt. Suman Widow&Dinesh Son & Smt. Nisha D/o Satish Eq. Share 1/9 Share, Anil, Arjun Sons & Smt. Ramwati Wd/o Mukesh S/o Bharta Eq. Share 1/9 Share, Parveen, Vikash, Mohit, Krishan, Ajay, Sons & Smt. Sonwati Wd/o Ramesh s/o Bharta Eq. Share 1/9 Share
	Private	Agriculture	9//2	0.0247	Raj Kumar, Jai Singh, Kirori, Zile Singh Sons & Smt. Maya, Poonam D/o BhartaS/o Kartam 6/9 Share, Smt. Suman Widow&Dinesh Son & Smt. Nisha D/o Satish Eq. Share 1/9 Share, Anil, Arjun Sons & Smt. Ramwati Wd/o Mukesh S/o Bharta Eq. Share 1/9 Share, Parveen, Vikash, Mohit, Krishan, Ajay, Sons & Smt. Sonwati Wd/o Ramesh s/o Bharta Eq. Share 1/9 Share
	Private	Agriculture	4//23	0.0043	Suraj Mal, Satish Sons & Smt. Nirmala Devi D/o Sodan Singh Eq Share 3/5 Share, Smt. Urmila Widow & Vikrant, Basant Sons & Smt. Rajni D/o Pratap Singh S/o Sodan Singh Eq. Share 1/5 Share Smt. Asha Devi Widow&Sonu, Raman Sons of Virender Singh S/o Sodan singh Eq. Share 1/5 Share
	Private	Agriculture	9//3/1	0.0047	Raj Kumar, Jai Singh, Kirori, Zile Singh Sons & Smt. Maya, Poonam D/o Bharta S/o Kartam 6/9 Share, Smt. Suman Widow & Dinesh Son

					&Smt. Nisha D/o Satish Eq. Share 1/9 Share, Anil, Arjun Sons &Smt. Ramwati Wd/o Mukesh S/o Bharta Eq. Share 1/9 Share, Parveen, Vikash, Mohit, Krishan, Ajay, Sons &Smt. Sonwati Wd/o Ramesh s/o Bharta Eq. Share 1/9 Share
	Private	Agriculture	4//17	0.0064	Suraj Mal, Satish Sons &Smt. Nirmala Devi D/o Sodan Singh Eq Share 3/5 Share, Smt. Urmila Widow &Vikrant, Basant Sons &Smt. Rajni D/o Pratap Singh S/o Sodan Singh Eq. Share 1/5 Share Smt. Asha Devi Widow&Sonu, Raman Sons of Virender Singh S/o Sodan singh Eq. Share 1/5 Share
	Private	Agriculture	4//16	0.0191	Suraj Mal, Satish Sons &Smt. Nirmala Devi D/o Sodan Singh Eq Share 3/5 Share, Smt. Urmila Widow&Vikrant, Basant Sons &Smt. Rajni D/o Pratap Singh S/o Sodan Singh Eq. Share 1/5 Share Smt. Asha Devi Widow&Sonu, Raman Sons of Virender Singh S/o Sodan singh Eq. Share 1/5 Share
	Private	Agriculture	3//20	0.0263	Rati Bhan, Ramphal, Sita Ram, Vikram, Raj Kumar Sons of Ved Ram Eq. Share 488/1950 Share, Smt. Kiran wati Devi W/o Daulat Ram 1302/1950 Share, Smt. Ashwanti W/o Mam Chand S/o Mangat Ram Vasi Badshahapur 160/1950 Share
	Private	Agriculture	3//19	0.0451	Rati Bhan, Ramphal, Sita Ram, Vikram, Raj Kumar Sons of Ved Ram Eq. Share 488/1950 Share, Smt. Kiran wati Devi W/o Daulat Ram 1302/1950 Share, Smt. Ashwanti W/o Mam Chand S/o Mangat Ram Vasi Badshahapur 160/1950 Share
	Private	Agriculture	3//24	0.0015	Rati Bhan, Ramphal, Sita Ram, Vikram, Raj Kumar Sons of Ved Ram Eq. Share 488/1950 Share, Smt. Kiran wati Devi W/o Daulat Ram 1302/1950 Share, Smt. Ashwanti W/o Mam Chand S/o Mangat Ram Vasi Badshahapur 160/1950 Share

	(3) Sancholi	Private	Agriculture	62//4	0.0137	Rehmuddin, Khurshid, Sons of Ismael S/o Dhamarti Eq. Share 47/94 Share, Jamshed, Sharukh S/o AasinS/o Ismail Eq. Share 47/188 Share, Gajraj, Inder, Ramavtar, Ashok kumar Sons of Deshraj Eq. Share 47/188 Share
		Private	Agriculture	62//5	0.0132	Rehmudin, Khurshid, S/o Ismael S/o Dhamardi Eq. Share 1/2 Share, Jamshed, Sharukh S/o Aasin S/o Ismail Eq. Share 1/4 Share, Gajraj, Inder, Ramavtar, Ashok kumar S/o Deshraj Eq. Share 1/4 Share
		Private	Agriculture	61//1	0.0057	Smt. Prakash Devi Wd/o Suresh S/o Dalip 1/5 Share, Smt. Kamlesh Wd/o Raj Kumar S/o Dalip 1/5 Share, Karnail Singh, Naresh S/o Dalip 2/5 Share, Smt. Somwati Widow&Amit, Shiva Sons &Amita D/o Jawahar Singh S/o Dalip Singh Eq. Share 1/5 Share
		Private	Agriculture	49//17/2	0.0570	Shamshu, Kamrudin S/o Usuf Eq. Share
		Private	Agriculture	49//21	0.0086	Smt. Prakash Devi Wd/o Suresh S/o Dalip 1/5 Share, Smt. Kamlesh Wd/o Raj Kumar S/o Dalip 1/5 Share, Karnail Singh, Naresh S/o Dalip 2/5 Share, Smt. Somwati Widow&Amit, Shiva Sons &Amita D/o Jawahar Singh S/o Dalip Singh Eq. Share 1/5 Share
		Private	Agriculture	49//22	0.0150	Smt. Prakash Devi Wd/o Suresh S/o Dalip 1/5 Share, Smt. Kamlesh Wd/o Raj Kumar S/o Dalip 1/5 Share, Karnail Singh, Naresh S/o Dalip 2/5 Share, Smt. Somwati Widow&Amit, Shiva Sons &Amita D/o Jawahar Singh S/o Dalip Singh Eq. Share 1/5 Share
		Gram Panchayat	Non-Agriculture	49//23	0.0157	Gram Panchayat
		Private	Agriculture	49//24	0.0172	Shamshu, Kamruddin S/o Yusuf Eq. Share
		Private	Agriculture	49//25/1	0.0050	Smt. Rasidan W/o Hasan mohammad 1/2 Share, Balesh W/o Raj Ram S/o Desh Ram 1/2 Share
		Private	Agriculture	49//25/2	0.0121	Smt. Prakash Devi Wd/o Suresh S/o Dalip 1/5 Share, Smt. Kamlesh Wd/o Raj

				Kumar S/o Dalip 1/5 Share, Karnail Singh, Naresh S/o Dalip 2/5 Share, Smt. Somwati Widow & Amit, Shiva Sons & Amita D/o Jawahar Singh S/o Dalip Singh Eq. Share 1/5 Share
Private	Agriculture	50//16	0.0210	Abbas, Azharuddin S/o Idrish Eq. Share 1/24 Share, Rehmat S/o Shitab 1/4 Share, Smt. Maya Devi W/o Braham Singh 17/48 Share, Smt. Jagresh W/o Sardaram 17/48 Share
Private	Agriculture	50//17	0.0203	Abbas, Azharuddin S/o Idrish Eq. Share 1/24 Share, Rehmat S/o Shitab 1/4 Share, Smt. Maya Devi W/o Braham Singh 17/48 Share, Smt. Jagresh W/o Sardaram 17/48 Share
Private	Agriculture	50//21	0.0177	Krishan pal, Raj Kumar, Omdev S/o Harswaroop S/o Shibba Eq. Share
Private	Agriculture	50//22	0.0184	Krishan pal, Raj Kumar, Omdev S/o Harswaroop S/o Shibba Eq. Share
Private	Agriculture	50//23	0.0078	Krishan pal, Raj Kumar, Omdev S/o Harswaroop S/o Shibba Eq. Share
Private	Agriculture	51//16	0.0245	Kabir alias Habbu, Shabbir, Shamshudin, Jamil, Shamil, Najir S/o Firoji S/o Isab Eq. Share Saknan deh
Private	Agriculture	51//17	0.0238	Jikar shah S/o Chimman Shah s/o Navikha
Private	Agriculture	51//18	0.0231	Jikar shah S/o Chimman Shah s/o Navikha
Private	Agriculture	51//19	0.0224	Dilbagh singh, Bal kishan S/o Badam singh S/o Kalluram Eq. Share 1/2 Share, Manjeet S/o Kartar Singh S/o Badam Singh 1/4 Share, Bhupender Singh, Pardeep Sons & Smt. Sunita, Bebi, Shashi Daughters of Ran Singh Eq. Share 1/4 Share
Private	Agriculture	51//20	0.0217	Dilbagh singh, Bal kishan S/o Badam singh S/o Kalluram Eq. Share 1/2 Share, Manjeet S/o Kartar Singh S/o Badam Singh 1/4 Share, Bhupender singh, Pardeep Sons & Smt. Sunita, Bebi, Shashi Daughters of Ran singh Eq. Share 1/4 Share
Private	Agriculture	52//11	0.0202	Mahesh Tyagi S/o Surjan Singh S/o Shri Ram Vasi

		Private	Agriculture	52//12	0.0263	Maidawas Kabir alias Habbu, Shabbir, Shamshudin, Jamil, Shamil, Najir S/o Firoji Eq. Share 1/2 Share, Rajeshwar Tyagi S/o Deshraj s/o Mani ram 1/24 Share, Rajinder Tyagi S/o Atar Singh S/o Deshraj 1/24 Share, Gourav Tyagi S/o Mulchand S/o Deshraj 1/24 Share and Smt. Bala Devi W/o Balraj Tyagi 1/24 Share, Anuj Kumar, Vipin Sons &Smt. Sukarma Devi Wd/o Mange Ram Eq. Share 1/12 Share, Vinod Tyagi S/o Raghbir Sharan S/o Shri Ram Eq. Share 1/12 Share, Jaipal, Raj Kumar, Ishwar Chand S/o Bishamber Dayal Eq. Share 1/8 Share, Smt. Ramita Wd/o and kapil S/o Subhash Chand S/o Bishamber Dayal Eq. Share 1/24 Share
		Private	Agriculture	52//13	0.0270	Kabir alias Habbu, Shabbir, Shamshudin, Jamil, Shamil, Najir S/o Firoji Eq. Share 1/2 Share, Rajeshwar Tyagi S/o Deshraj S/o Mani ram 1/24 Share, Rajinder Tyagi S/o Atar Singh S/o Deshraj 1/24 Share, Gourav Tyagi S/o Mulchand S/o Deshraj 1/24 Share and Smt. Bala Devi W/o Balraj Tyagi 1/24 Share, Anuj Kumar, Vipin Sons &Smt. Sukarma Devi Wd/o Mange Ram Eq. Share 1/12 Share, Vinod Tyagi S/o Raghbir Sharan S/o Shri Ram Eq. Share 1/12 Share, Jaipal, Raj Kumar, Ishwar Chand S/o Bishamber Dayal Eq. Share 1/8 Share, Smt. Ramita Wd/o and kapil S/o Subhash Chand S/o Bishamber Dayal Eq. Share 1/24 Share
		Private	Agriculture	52//14	0.0277	Kabir alias Habbu, Shabbir, Shamshudin, Jamil, Shamil, Najir S/o Firoji Eq. Share 1/2 Share, Rajeshwar Tyagi S/o Deshraj s/o Mani ram 1/24 Share, Rajinder Tyagi S/o Atar Singh S/o Deshraj 1/24 Share, Gourav Tyagi S/o Mulchand S/o Deshraj 1/24 Share and Smt. Bala Devi W/o Balraj Tyagi 1/24 Share, Anuj

					Kumar, Vipin Sons &Smt. Sukarma Devi Wd/o Mange Ram Eq. Share 1/12 Share, Vinod Tyagi S/o Raghbir Sharan S/o Shri Ram Eq. Share 1/12 Share, Jaipal, Raj Kumar, Ishwar Chand S/o Bishamber Dayal Eq. Share 1/8 Share, Smt. Ramita Wd/o and kapil S/o Subhash Chand S/o Bishamber Dayal Eq. Share 1/24 Share
	Private	Agriculture	52//15/1	0.0080	Kabir alias Habbu, Shabbir, Shamshudin, Jamil, Shamil, Najir S/o Firoji Eq. Share 1/2 Share, Rajeshwar Tyagi S/o Deshraj s/o Mani ram 1/24 Share, Rajinder Tyagi S/o Atar Singh S/o Deshraj 1/24 Share, Gourav Tyagi S/o Mulchand S/o Deshraj 1/24 Share and Smt. Bala Devi W/o Balraj Tyagi 1/24 Share, Anuj Kumar, Vipin Sons &Smt. Sukarma Devi Wd/o Mange Ram Eq. Share 1/12 Share, Vinod Tyagi S/o Raghbir Sharan S/o Shri Ram Eq. Share 1/12 Share, Jaipal, Raj Kumar, Ishwar Chand S/o Bishamber Dayal Eq. Share 1/8 Share, Smt. Ramita Wd/o and kapil S/o Subhash Chand S/o Bishamber Dayal Eq. Share 1/24 Share
	Private	Agriculture	52//15/2	0.0204	Chander Bhan, Atar singh, Lakhi ram, S/o Dhanna Ram Eq. Share
	Private	Agriculture	52//20	0.0018	Ved Prakash, Om Prakash S/o Dalip singh Eq. Share Vasi Khoh Distt. Gurgaon
	Gram Panchayat	Non-Agriculture	R-83	0.0329	Gram Panchayat
	Private	Agriculture	53//6/1	0.0174	Duli Chand, Karan singh S/o Dharma S/o Roop chand Eq. Share malerna The. Ballabhgarh
	Private	Agriculture	53//6/2	0.0242	Duli Chand, Karan singh S/o Dharma S/o Roop chand Eq. Share malerna The. Ballabhgarh
	Private	Agriculture	53//7	0.0300	Duli Chand, Karan singh, S/o Dharma Eq. Share
	Private	Agriculture	53//8	0.0085	Duli Chand, Karan singh, S/o Dharma Eq. Share
	Private	Agriculture	53//11/1	0.0046	Ami Chand, Prempal, Ombir S/o Palaram Eq. Share

		Private	Agriculture	53//11/2	0.0244	Sawaya ram S/o Gadu Ram S/o Chimman Das
		Private	Agriculture	53//12	0.0082	Sawaya ram S/o Gadu Ram S/o Chimman Das
		Private	Agriculture	53//27	0.0004	Duli Chand, Karan singh, S/o Dharma Eq. Share
		Private	Agriculture	54//5/1	0.0261	Mohan Lal, Sushil Kumar Eq. Share 4/5 Share Sons & Smt. Ishwari Devi 1/5 Share Wd/o Ram Dita Vasi Sohna
		Private	Agriculture	54//5/2	0.0123	Atar Chand S/o Shanu Ram S/o Nanak Ram Vasi Kaithal Khana Kasht Subhan S/o Gafan S/o Arjun Gairmorusi
		Private	Agriculture	54//5/3	0.0138	Satpal S/o Teju Ram 1/2 Share, Vijay Kumar S/o Ishwar Das 1/3 Share, Gaurav Arora S/o Vijay Kumar 1/6 Share
		Private	Agriculture	54//6	0.0015	Satpal, S/o Teju ram S/o Ishwar Das 160/320 Share, Vijay kumar S/o Tirath Das 107/320 Share, Gaurav Arora S/o Vijay kumar 53/320 Share,
		Private	Agriculture	54//7	0.0389	Satpal, S/o Teju ram S/o Ishwar Das 160/320 Share, Vijay kumar S/o Tirath Das 107/320 Share, Gaurav Arora S/o Vijay kumar 53/320 Share,
		Private	Agriculture	54//8	0.0842	Kabir alias Habbu, Shamshudin, Jamil, Shamil, Najir S/o Firoji S/o Ishab Eq. Share 5/36 Share, Shabbir S/o Firoji 7/36 Share, Ali Mohammad Sahboo S/o Hasan Mohammad Eq. Share 1/9 Share, Vakeel Ahmad S/o Harun 1/18 Share, Ahmad jaan, Harun S/o Ishab Eq. Share 1/3 Share, Smt. Faidan D/o Hameeda 1/6 Share, Smt. Faidan Patta Dehinda Iklas, Mustak, Sahil S/o Shabbir Eq. Share 1/6 Share Patta Girinda, Susheel Kumar, Mohan lal, S/o Ram Datta 4/5 Share & Ishwar Devi Wd/o Ram Datta 1/5 Share, Mohan Lal, Sushil Kumar S/o Ram Datta Eq. Share
		Private	Agriculture	54//9/1	0.0156	Mohan Lal, Sushil Kumar Eq. Share 4/5 Share Sons & Smt. Ishwari Devi 1/5 Share Wd/o Ram Dita Vasi Sohna
		Private	Agriculture	54//9/2	0.0618	Mohan Lal, Sushil Kumar Eq. Share 4/5 Share Sons & Smt. Ishwari Devi 1/5 Share Wd/o Ram Dita Vasi Sohna

		Private	Agriculture	54//10	0.0609	Mohan Lal, Sushil Kumar Eq. Share 4/5 Share Sons & Smt. Ishwari Devi 1/5 Share Wd/o Ram Dita Vasi Sohna
		Gram Panchayat	Non-Agriculture	R-84	0.0600	Gram Panchayat
		Private	Agriculture	55//1	0.0958	Satpal S/o Teju Ram 1/2 Share, Ishwar Das S/o Tirath Das 1/3 Share, Gaurav Arora S/o Vijay Kumar 1/6 Share Rahinan Smt. Basandi Bai Widow & Asha Nand S/o Basanda ram Eq. Share Murthenan
		Private	Agriculture	55//2/1	0.1446	Sakshi Behl S/o Ramesh Behl 3/4 Share, Ansh Behl S/o Ramesh Behl 1/4 Share
		Private	Agriculture	55//2/2	0.0165	Sakshi Behl S/o Ramesh Behl 3/4 Share, Ansh Behl S/o Ramesh Behl 1/4 Share
		Private	Agriculture	55//3	0.1616	Ravinder kumar S/o Lalit Jindal
		Private	Agriculture	55//4	0.1888	Priyanka Behl, Prinita Behl D/o Ramesh Behl Eq. Share
	(4) Khuntपुरi	Private	Agriculture	9//7/1	0.0377	Smt. Asma Rashid D/o Rasid jameer
		Gram Panchayat	Non-Agriculture	36	0.1288	Gram Panchayat Deh
		Private	Agriculture	10//10	0.0190	Devender S/o Sarda Ram S/o Chunni Lal
		Private	Agriculture	10//3/1	0.1790	Total 71 Share Zille, Ratna S/o Indraj S/o Het Ram Eq. Share 36/71 Share, Tej Pal S/o Shish Ram 24/71 Share, Devinder S/o Sarda Ram S/o Chunni lal 5/71 Share, Umesh, Mahesh S/o Dharambir Eq. Share 4/71 Share, Smt. Omwati Wd/o Dharambir 2/71 Share
		Private	Agriculture	10//4/1/2	0.0784	Umesh, Mahesh S/o 3/16 Share & Smt. Omwati Wd/o Dharambir S/o Indraj 1/16 Share, Jagdish, Zile, Ratna, S/o Indraj Eq. Share 3/4 Share
		Private	Agriculture	10//4/2	0.0556	Umesh, Mahesh S/o dharmveer 3/16 Share & Smt. Omwati Wd/o Dharambir S/o Indraj 1/16 Share, Jagdish, Zile, Ratna, S/o Indraj S/o hetram Eq. Share 3/4 Share
		Gram Panchayat	Non-Agriculture	7//22	0.0011	Gram Panchayat Deh
		Private	Agriculture	10//5	0.1523	Umesh, Mahesh S/o 3/16 Share & Smt. Omwati Wd/o Dharambir S/o Indraj 1/16 Share, Jagdish, Zile, Ratna S/o Indraj Eq. Share 3/4 Share

		Private	Agriculture	11//1	0.1458	Umesh, Mahesh S/o dharmveer 3/16 Share & Smt. Omwati Wd/o Dharambir S/o Indraj 1/16 Share, Jagdish, Zile, Ratna S/o Indraj S/o hetram Eq. Share 3/4 Share
		Private	Agriculture	11//2/1	0.1517	Umesh, Mahesh Sons 3/16 Share & Smt. Omwati Wd/o Dharambir S/o Indraj 1/16 Share, Jagdish, Zile, Ratna S/o Indraj Eq. Share 3/4 Share
		Gram Panchayat	Non-Agriculture	11//3	0.1426	Gram Panchayat Deh
		Private	Agriculture	11//5	0.1192	Bhagwan Sahai S/o kewal S/o Hari kishan 1/2 Share, Lekh Ram S/o Nandu 1/2 Share
		Private	Agriculture	12//1	0.0931	Lekh Ram S/o Nandu 71/238 Share, Bhagwan Sahay S/o Kewal S/o Hari Kishan 1/2 Share, Maha Ram S/o Shish Ram 24/119 Share
		Gram Panchayat	Non-Agriculture	11//4	0.1310	Gram Panchayat Deh
		Private	Agriculture	12//2	0.0596	Chander Pal S/o Duli Chand 49/786 Share, Anita W/o Ratan Singh S/o Duli Chand 97/1572 Share, Rohtash S/o Duli Chand S/o Bansi 97/1572 Share, DhanSingh S/o Duli Chand S/o Bansi 97/1572 Share, Ashok Kumar, Vinod Kumar, Parvinder Kumar Sons & Madhu Bala Daughter & Smt. Inder wati Wd/o Gyan Chand S/o Mangtu Eq. Share 589/1572 Share, Satbir S/o Duli Chand S/o Bansi 101/1572 Share, Kaushalya W/o Om Prakash 5/1572 Share Vasi Deh
		Private	Agriculture	12//4	0.0078	Tek Ram S/o Gokal S/o Narayan singh
		Gram Panchayat	Non-Agriculture	5//23	0.0392	Gram Panchayat Deh
		Private	Agriculture	12//3	0.0261	Charan Singh S/o Shri Chander S/o dhan Singh 49/379 Share R/o Naathupur, Lakhmi, Gyan Chand, Rajinder S/o Chet Ram S/o Shiv SinghEq. Share 95/379 Share, Smt. Sunita W/o Raj Pal S/o Duli Chand 25/379 Share, Smt. Sarla Devi W/o Chander Pal S/o Duli Chand 109/3032 Share, Smt. Anita W/o Ratan Singh S/o Duli Chand 109/3032 Share,

						Rohtash S/o Duli ChandS/o Bansi 109/3032 Share, Dhan Singh S/o Duli Chand 109/3032 Share, Satbir S/o Duli Chand 27/758 Share, Ashok Kumar, Vinod Kumar, Parvinder Kumar, Sons &Smt. Madhu Bala Daughter &Smt. Inder wati Wd/o Gyan Chand s/o Mangtu Eq. Share 142/379 Share Vasi deh
		Private	Agriculture	5//24	0.0635	Uday ram S/o Gokal &Tekram S/o Gokal
		Private	Agriculture	5//25	0.0594	Uday ram S/o Gokal &Tekram S/o Gokal
		Private	Agriculture	4//21/1	0.0478	Ved Ram S/o Gokal S/o Narayan
		Private	Agriculture	4//22	0.0174	Sihram S/o Gokal S/o Narayan Singh
		Gram Panchayat	Non-Agriculture	13//2	0.0125	Gram Panchayat Deh
		Private	Agriculture	4//18	0.0584	Sher Singh S/o Chiranji
		Gram Panchayat	Non-Agriculture	R-41	0.0030	Gram Panchayat Deh
		Private	Agriculture	4//24	0.0125	Sihram S/o Gokal S/o Narayan Singh
		Private	Agriculture	4//16	0.0226	Girraj S/o Sukh Ram S/o Nanhe
	(5) Silani	Private	Agriculture	5//13	0.0264	Smt. Asma Wasid W/o Aasif JafarS/o Jafer R/o Gurgaon 1133/1613 Share, Smt. Rajni Gupta W/o Anil Gupta R/o Meerut 320/1613 Share, Smt. Tarang Choudhary W/o Anil Choudhary R/o Gurgaon 160/1613 Share
		Gram Panchayat	Non-Agriculture	5//7	0.1411	Gram Panchayat Deh
		Gram Panchayat	Non-Agriculture	10//15	0.0888	Gram Panchayat Deh
		Gram Panchayat	Non-Agriculture	10//17	0.0094	Gram Panchayat Deh
		Private	Agriculture	5//14	0.0022	Smt. Asma Wasid W/o Aasif JafarS/o Jafer R/o Gurgaon 1133/1613 Share, Smt. Rajni Gupta W/o Anil Gupta R/o Meerut 320/1613 Share, Smt. Tarang Choudhary W/o Anil Choudhary R/o Gurgaon 160/1613 Share
		Gram Panchayat	Non-Agriculture	9//11	0.1187	Gram Panchayat Deh
		Gram Panchayat	Non-Agriculture	9//12	0.1379	Gram Panchayat Deh
		Gram Panchayat	Non-Agriculture	9//13	0.1270	Gram Panchayat Deh
		Gram	Non-	9//14	0.1143	Gram Panchayat Deh

		Panchayat	Agriculture			
		Private	Agriculture	5//6	0.1559	Smt. Asma Wasid W/o Aasif Jafar Naem R/o 145 Home Apartment Gurgaon 1133/1613 Share, Smt. Rajni Gupta W/o Anil Gupta S/o Mohan lal Gupta jaswant suger mill Merut 320/1613 Share, Smt, Tarang Choudhary W/o Anil Choudhary s/o M.R. Chaudhary R/o Hno 530 Palam vihar Gurgaon 160/1613 Share.
		Gram Panchayat	Non-Agriculture	9//15/1	0.0361	Gram Panchayat Deh
		Gram Panchayat	Non-Agriculture	9//15/2	0.0266	Panchayat Deh
		Gram Panchayat	Non-Agriculture	9//15/3	0.0366	Gram Panchayat Deh
		Gram Panchayat	Non-Agriculture	R-106	0.0313	Gram Panchayat Deh
		Private	Agriculture	4//9/1	0.0831	Sanjeev Kumar S/o Ghanshyam Das 15/72 Share, Deepak Gupta S/o Ram Narayan Gupta 15/72 Share, Ashok Kumar S/o B.L. Gupta 24/72 Share, M/s karna Estate & Devlopers 18/72 Share
		Gram Panchayat	Non-Agriculture	8//11	0.0333	Gram Panchayat Deh
		Gram Panchayat	Non-Agriculture	8//12	0.0326	Gram Panchayat Deh
		Gram Panchayat	Non-Agriculture	8//13	0.0635	Gram Panchayat Deh
		Private	Agriculture	4//9/2/1	0.0377	M/s J.K.L Power Eng Pvt LTDKhana Kasht Bharta S/o Phool Singh Gair Morusi
		Gram Panchayat	Non-Agriculture	8//14	0.0510	Gram Panchayat Deh
		Gram Panchayat	Non-Agriculture	7//14	0.0131	Gram Panchayat Deh
		Gram Panchayat	Non-Agriculture	7//15	0.0255	Gram Panchayat Deh
		Gram Panchayat	Non-Agriculture	6//11	0.0398	Gram Panchayat Deh
		Private	Agriculture	4//9/2/3	0.0027	M/s J.K.L Power Eng Pvt LTDKhana Kasht Bharta S/o Phool Singh Gair Morusi
		Gram Panchayat	Non-Agriculture	6//9	0.0211	Gram Panchayat Deh
		Gram Panchayat	Non-Agriculture	6//12	0.0422	Gram Panchayat Deh
		Gram Panchayat	Non-Agriculture	6//8	0.0209	Gram Panchayat Deh
		Gram Panchayat	Non-Agriculture	6//13	0.0510	Gram Panchayat Deh

		Private	Agriculture	4//10/1	0.0021	Beena Gupta W/o Hari Om Gupta R/o 15/1 kalka ji Extn. New Delhi 2/3 Share, M/s Karna Estate & Devlopers 1/3 Share
		Gram Panchayat	Non-Agriculture	6//14	0.0783	Gram Panchayat Deh
		Gram Panchayat	Non-Agriculture	6//15	0.0905	Gram Panchayat Deh
		Gram Panchayat	Non-Agriculture	5//11	0.0863	Gram Panchayat Deh
		Gram Panchayat	Non-Agriculture	4//10/2	0.1665	Panchayat Deh
		Private	Agriculture	4//8	0.1940	Sanjeev Kumar S/o Ghanshyam Das 15/72 Share, Deepak Gupta S/o Ram Narayan Gupta 15/72 Share, Ashok Kumar S/o B.L. Gupta 24/72 Share, M/s karna Estate & Devlopers 18/72 Share
		Gram Panchayat	Non-Agriculture	5//9	0.0162	Gram Panchayat Deh
		Gram Panchayat	Non-Agriculture	5//12	0.0562	Gram Panchayat Deh
		Gram Panchayat	Non-Agriculture	5//8	0.0889	Gram Panchayat Deh
		Private	Agriculture	4//7	0.2809	Sanjeev Kumar S/o Ghanshyam Das 8/39 Share, Deepak Gupta S/o Ram Narayan Gupta 8/39 Share, Ashok Kumar S/o B.L. Gupta 13/39 Share, M/s karna Estate & Devlopers 10/39 Share
	(6) Karanki	Private	Agriculture	67//10	0.0267	Jagbir, Bijender singh, Sons & Smt. Shiv Kaur Wd/o Vidhu Eq. Share 3/4 Share, Pratap, Mukesh S/o Jagbir singh S/o Vidhu Eq. Share 1/8 Share, Bhupesh, Narbir, Karambir S/o Vijender Singh S/o Vidhu Eq. Share 1/8 Share
		Private	Agriculture	67//9	0.0009	Jagbir, Bijender singh, Sons & Smt. Shiv Kaur Wd/o Vidhu Eq. Share 3/4 Share, Pratap, Mukesh S/o Jagbir singh S/o Vidhu Eq. Share 1/8 Share, Bhupesh, Narbir, Karambir S/o Vijender Singh S/o Vidhu Eq. Share 1/8 Share
		Private	Agriculture	67//3	0.0084	Jagbir, Bijender singh, Sons & Smt. Shiv Kaur Wd/o Vidhu Eq. Share 3/4 Share, Pratap, Mukesh S/o Jagbir singh S/o Vidhu Eq. Share 1/8 Share, Bhupesh, Narbir, Karambir S/o Vijender Singh S/o Vidhu Eq. Share 1/8 Share
		Gram	Non-	61//10	0.1833	Gram Panchayat

	Panchayat	Agriculture			
	Private	Agriculture	67//4	0.0038	Jagbir, Bijender singh, Sons & Smt. Shiv Kaur Wd/o Vidhu Eq. Share 1/4 Share, Pratap, Mukesh S/o Jagbir singh S/o Vidhu Eq. Share 1/8 Share, Bhupesh, Narbir, Karambir S/o Vijender singh S/o Vidhu Eq. Share 1/8 Share
	Private	Agriculture	67//5/2	0.0090	Jagbir, Bijender singh, Sons & Smt. Shiv Kaur Wd/o Vidhu Eq. Share 3/4 Share, Pratap, Mukesh S/o Jagbir singh S/o Vidhu Eq. Share 1/8 Share, Bhupesh, Narbir, Karambir S/o Vijender singh S/o Vidhu Eq. Share 1/8 Share
	Private	Agriculture	65//21	0.0019	Asha Ram Tek Ram educational trust R/o F-41, katwariya sarai, New delhi
	Private	Agriculture	65//22	0.0121	Asha Ram Tek Ram educational trust R/o F-41, katwariya sarai, New delhi
	Private	Agriculture	65//23	0.0223	Asha Ram Tek Ram educational trust R/o F-41, katwariya sarai, New delhi
	Private	Agriculture	65//24	0.0321	Nanak Chand S/o Badam singh S/o Hukam singh Vasi deh
	Private	Agriculture	65//25	0.0100	Yograj, Devinder, Vinod kumar S/o Rajinder Eq. Share
	Private	Agriculture	64//20	0.0057	Smt. Dharamwati W/o Mukhtyar singh Khana Kast Mukhtyar singh S/o Atar singh Patte dar
	Gram Panchayat	Non-Agriculture	64//19	0.0434	Panchayat Deh
	Gram Panchayat	Non-Agriculture	R-85	0.0008	Gram Panchayat (Rasta)
	Private	Agriculture	64//18	0.0615	Smt. Kamla W/o Raman Vasi deh
	Private	Agriculture	64//17	0.0571	Jagdish, Om prakash, Satbir, Virender SS/o Ram sawaroop S/o Adimal Eq. Share Vasiyan deh
	Private	Agriculture	64//16	0.0574	Jagdish, Om prakash, Satbir, Virender S/o Ram sawaroop S/o Adimal Eq. Share
	Private	Agriculture	63//20	0.0446	Jagbir, Bijender singh Sons & Smt. Shiv Kaur Wd/o Vidhu Eq. Share 3/4 Share, Pratap, Mukesh S/o Jagbir singh S/o Vidhu Eq. Share 1/8 Share, Bhupesh, Narbir, Karambir S/o Vijender Singh S/o Vidhu Eq. Share 1/8 Share
	Gram	Non-	61//9	0.1924	Gram Panchayat Karanki

	Panchayat	Agriculture			
	Private	Agriculture	63//12	0.0076	Jagbir, Bijender singh Sons &Smt. Shiv Kaur Wd/o Vidhu Eq. Share 3/4 Share, Pratap, Mukesh S/o Jagbir singh S/o Vidhu Eq. Share 1/8 Share, Bhupesh, Narbir, Karambir S/o Vijender singh Eq. Share 1/8 Share
	Private	Agriculture	63//13	0.0547	Jagbir, Bijender singh Sons &Smt. Shiv Kaur Wd/o Vidhu Eq. Share 3/4 Share, Pratap, Mukesh S/o Jagbir singh S/o Vidhu Eq. Share 1/8 Share, Bhupesh, Narbir, Karambir S/o Vijender singh Eq. Share 1/8 Share
	Gram Panchayat	Non-Agriculture	61//8	0.0590	Gram Panchayat Karanki
	Private	Agriculture	63//14/1	0.0498	Jagbir, Bijender singh Sons &Smt. Shiv Kaur Wd/o Vidhu Eq. Share 3/4 Share, Pratap, Mukesh S/o Jagbir singh S/o Vidhu Eq. Share 1/8 Share, Bhupesh, Narbir, Karambir S/o Vijender singh Eq. Share 1/8 Share
	Private	Agriculture	63//15	0.0359	Smt. Beena Devi W/o Sanjeev Kumar S/o Krishan Kumar
	Gram Panchayat	Non-Agriculture	63//26	0.0227	Gram Panchayat Karanki
	Private	Agriculture	62//11	0.0854	Mahender singh, Mukhtyar singh S/o Atar singh S/o Hukam Singh khana Kast Mahender Singh etc. Share holder Bayan Mukesh kumar, Rajesh Kumar S/o Rohtash Mustriyan
	Private	Agriculture	62//12	0.0692	Mukesh kumar, Rakesh kumar S/o Rohtash singh Eq. Share
	Private	Agriculture	62//8	0.0379	Jagbir singh etc. Owner Badstur M/s Dalars Share Holders Bayan Kapil Dev S/o Suraj Prakash R/o Sukhrali Mustri
	Private	Agriculture	62//7	0.0693	Jagbir, Bijender singh Sons &Smt. Shiv Kaur Wd/o Vidhu S/o Ganga BakshEq. Share 1/16 Share, Sarda ram, Sumer Sons &Smt. Jasrati Wd/o Girraj S/o Popal 1/96 Share, M/s Alphines LTD 1/12 Share, Kartar singh, Shoudan singh S/o Sultan singh Eq. Share 5/32 Share, Satbir S/o Tek ram 163/784 Share, Nanak Chand S/o Badam SIngh 1/16 Share, Mahender

						singh, Mukehtyar Singh Eq. share 1/8 Share, Pratap, Mukesh S/o Jagbir singh S/o Vidhev Eq. Share 1/96 Share, Bhupesh, Narbir, KarambirS/o Bijender Eq. Share 1/96 Share, Ved Pal S/o Sohan Lal S/o Adimal 1/96 Share, Sehdev S/o Jaspal S/o Adimal 1/96 Share, Anil Bhalla S/o Raj Kumar Bhalla 1/48 Share, Smt. Harman W/o Sanjay S/o Hukam singh 33/784 Share, Yograj, Devinder, Vinod kumar S/o Rajinder singh Eq. Share 1/16 Share, Jagdish, Omprakash, Satbir, Virender singh S/o Ram Sawaroop Eq. Share 1/48 Share, Amit Kumar, Prit kumar Sons &Smt. Kanta Kumari Wd/o Rohtash SIngh Eq. Share 1/64 Share, Surender Kumar, Devinder kumar, Ravinder kumar S/o Uday singh Eq. Share 15/192 Share, Parveen, Prem jeet S/o Desh raj S/o Popal Eq Share 1/96 Share
	Gram Panchayat	Non-Agriculture	59//4	0.0482	Gram Panchayat Karanki	
	Private	Agriculture	62//14/2	0.0268	Jagbir, Bijender singh Sons &Smt. Shiv Kaur Wd/o Vidhu Eq. Share 1/16 Share, Sarda ram, Sumer Sons &Smt. Jasrati Wd/o Girraj S/o Popal 1/96 Share, M/s Alphines LTD 1/12 Share, Kartar singh, Shoudan Singh S/o Sultan singh Eq. Share 5/32 Share, Satbir S/o Tek ram 163/784 Share, Nanak Chand S/o Badam SIngh 1/16 Share, Mahender singh, Mukehtyar Singh Eq. share 1/8 Share, Pratap, Mukesh S/o Jagbir singh Eq. Share 1/96 Share, Bhupesh, Narbir, Karambir S/o Bijender Eq Share 1/96 Share, Ved Pal S/o Sohan Lal S/o Adimal 1/96 Share, Sehdev S/o Jaspal S/o Adimal 1/96 Share, Anil Bhalla S/oRaj Kumar Bhalla 1/48 Share, Smt. Harman W/o Sanjay S/o Hukam singh 33/784 Share, Yograj, Devinder, Vinod kumar S/o Rajinder singh Eq. Share 1/16 Share, Jagdish, Omprakash,	

						Satbir, Virender singh S/o Ram Sawaroop Eq. Share 1/48 Share, Amit Kumar, Prit kumar Sons & Smt. Kanta Kumari Wd/o Rohtash Singh Eq. Share 1/64 Share, Surender Kumar, Devinder kumar, Ravinder kumar S/o Uday singh Eq. Share 15/192 Share, Parveen, Premjeet S/o Desh raj S/o Popal Eq. Share 1/96 Share
		Private	Agriculture	62//6	0.1585	Jagbir, Bijender singh Sons & Smt. Shiv Kaur Wd/o Vidhu Eq. Share 1/16 Share, Sardar, Sumer Sons & Smt. Jasrati Wd/o Girraj S/o Popal 1/96 Share, M/s Alphines LTD 1/12 Share, Kartar singh, Shoudan singh S/o Sultan singh Eq. Share 5/32 Share, Satbir S/o Tek ram 163/784 Share, Nanak Chand S/o Badam Singh 1/16 Share, Mahender singh, Mukehtyar Singh Eq. share 1/8 Share, Pratap, Mukesh S/o Jagbir singh Eq. Share 1/96 Share, Bhupesh, Narbir, Karambir S/o Bijender Eq. Share 1/96 Share, Ved Pal S/o Sohan Lal S/o Adimal 1/96 Share, Sehdev S/o Jaspal S/o Adimal 1/96 Share, Anil Bhalla S/o Raj Kumar Bhalla 1/48 Share, Smt. Harman W/o Sanjay S/o Hukam singh 33/784 Share, Yograj, Devinder, Vinod kumar S/o Rajinder singh Eq. Share 1/16 Share, Jagdish, Omprakash, Satbir, Virender singh S/o Ram Sawaroop Eq. Share 1/48 Share, Amit Kumar, Prit kumar Sons & Smt. Kanta Kumari Wd/o Rohtash Singh Eq. Share 1/64 Share, Surender Kumar, Devinder kumar, Ravinder kumar S/o Uday Singh Eq. Share 15/192 Share, Parveen, Prem jeet S/o Desh raj S/o Popal Eq. Share 1/96 Share
		Gram Panchayat	Non-Agriculture	59//5	0.0311	Gram Panchayat Karanki
		Private	Agriculture	58//1	0.0157	Total 139 share Smt. Amita Mehra W/o Vinod Mehra 11/139 Share, Smt.

						Deepa Sibbal W/o Virender Sibbal 3/139 Share, Smt. Vandna Khanna 9/139 Share, Gopal, Narender, Sons & Smt. Sangeeta Daughter & Smt. Gaya wati Widow & makhan Devi M/o Satpal Eq. Share 13/139 Share, Satish Khanna S/o Brij Kishor & Smt. Archana Khanna W/o Satish Khanna Eq. Share 8/139 Share, Gautam Shah S/o Ravinder Kumar 4/139 Share, Smt. Madhurima Mukherji W/o Gautam Shah 4/139 Share, Jitender Aneja S/o H.D. Aneja & Smt. Saloni Gupta W/o Jitender Aneja Eq. Share 18/139 Share, J.M. Kumar S/o Manohar Lal 4/139 Share, Ram rao rana S/o Nasib chand rana & Kailash Rani Wo Ramu rao Eq. Share 9/139 Share, Uday suri S/o J.M Suri & Smt. Kumari Neha Suri D/o J.L. Suri Eq. Share 9/139 Share, Smt. Birwati W/o Lakshman S/o Madan Lal 4/139 Share, Arun Ghosh S/o R.P Ghosh & Smt. Sancheta Ghosh W/o Arun Ghosh Eq. Share 9/139 Share, Pahlad, Padam, Naresh, Jai Prakash S/o Kishan S/o Ganpat Eq. Share 4/139 Share. Ritik Son & Bharti Sharma Daughter & Meena Kumari Wd/o Dinesh Kumar Eq. Share 1/139 Share, Smt. Payal Mittal Tiwari W/o Aashish Tiwari S/o Shyam Sunder Lal 9/139 Share, Mahipal S/o Nahar Singh 14/139 Share, Rajesh Mehndiratta S/o A.P. Mehndiratta 4/139 Share, Smt. Susheela Devi W/o Ram Niwas Yadav 1/139 Share, Smt. Jaswanti W/o Ramphal Yadav & Smt. Sunita W/o Nand kishor Eq. Share 1/139 Share
		Private	Agriculture	55//22	0.0013	Total 139 share Smt. Amita Mehra W/o Vinod Mehra 11/139 Share, Smt. Deepa Sibbal W/o Virender Sibbal 3/139 Share, Smt. Vandna Khanna 9/139 Share, Gopal, Narender, Sons & Smt. Sangeeta Daughter & Smt.

						Gaya wati&makhan Devi M/o Satpal Eq. Share 13/139 Share, Satish Khanna S/o Brij Kishor & Smt. Archana Khanna W/o Satish Khanna Eq. Share 8/139 Share, Gautam Shah S/o Ravinder Kumar 4/139 Share, Smt. Madhurima Mukherji W/o Gautam Shah 4/139 Share, Jitender Aneja S/o H.D. Aneja & Smt. Saloni Gupta W/o Jitender Aneja Eq. Share 18/139 Share, J.M. Kumar S/o Manohar Lal 4/139 Share, Ram rao rana S/o Nasib chand rana & Kailash Rani Wo Ramu rao Eq. Share 9/139 Share, Uday suri S/o J.M Suri & Smt. Kumari Neha Suri D/o J.L. Suri Eq. Share 9/139 Share, Smt. Birwati W/o Lakshman S/o Madan Lal 4/139 Share, Arun Ghosh S/o R.P Ghosh & Smt. Sancheta Ghosh W/o Arun Ghosh Eq. Share 9/139 Share, Pahlad, Padam, Naresh, Jai Prakash S/o Kishan S/o Ganpat Eq. Share 4/139 Share. Ritik Son & Bharti Sharma Daughter & Meena Kumari Wd/o Dinesh Kumar Eq. Share 1/139 Share, Smt. Payal Mittal Tiwari W/o Aashish Tiwari S/o Shyam Sunder Lal 9/139 Share, Mahipal S/o Nahar Singh 14/139 Share, Rajesh Mehndiratta S/o A.P. Mehndiratta 4/139 Share, Smt. Susheela Devi W/o Ram Niwas Yadav 1/139 Share, Smt. Jaswanti W/o Ramphal Yadav & Smt. Sunita W/o Nand kishor Eq. Share 1/139 Share. Sunita W/o Nand kishor Eq. Share 1/139 Share
		Private	Agriculture	55//23	0.0276	Parbhati Lal S/o Ivala shah 1/10 Share, Smt. Ranjana Khandelwal W/o Vishnu Khandelwal 1/10 Share, Smt. Nimmi Dhir W/o Suresh Dhir 1/10 Share, Satish S/o Gauri Shankar & Smt. Anita Seth W/o Satish Seth Eq Share 1/10 Share, Arun Ghosh S/o R.V Ghosh & Smt. Sanchita Ghosh W/o Arun Ghosh Eq. Share 1/10 Share, Smt. Mukta

						Rungta W/o Vipul Rungta & Vipul Rungta S/o S.K Rungta Eq. Share 1/10 Share, Smt. Nirupama Ranjan W/o Lok Ranjan 128/1600 Share, Shri Niwas Kilambi S/o Ranga mathmai & Smt. Vinti kaitiya kilambi W/o Shri Niwas Kilambi Eq. Share 1/15 Share Yoginder S/o Satbir singh & Jitender singh, Anup singh, Arvind singh S/o Ranveer & Umesh singh Chetan singh S/o Om prakash 1/30 Share, Smt. Beerwati W/o Lakshman 9/1600 Share, Pehlad, Padam, Naresh, jai prakash S/o Shri Kishan Eq. Share 7/1600 Share, Ritik Son & Bharti Daughter & Smt. Meena Wd/o DInesh kumar S/o Shri Kishan Eq Share 1/100 Share, M/s N.K.L. Mining Ltd 1/5 Share
		Private	Agriculture	55//24	0.0598	Ravinder nath S/o Ishwar Das
		Private	Agriculture	55//25	0.0224	Total 139 Share Smt. Amita Mehra W/o Vinod Mehra 11/139 Share, Smt. Deepa Sibbal W/o Virender Sibbal 3/139 Share, Smt. Vandna Khanna 9/139 Share, Gopal, Narender Sons & Smt. Sangeeta Daughter & Smt. Gaya wati Widow & makhan Devi M/o Satpal Eq. Share 13/139 Share, Satish Khanna S/o Brij Kishor & Smt. Archana Khanna W/o Satish Khanna Eq. Share 8/139 Share, Gautam Shah S/o Ravinder Kumar 4/139 Share, Smt. Madhurima Mukherji W/o Gautam Shah 4/139 Share, Jitender Aneja S/o H.D. Aneja & Smt. Saloni Gupta W/o Jitender Aneja Eq. Share 18/139 Share, J.M. Kumar S/o Manohar Lal 4/139 Share, Ram rao rana S/o Nasib chand rana & Kailash Rani Wo Ramu rao Eq. Share 9/139 Share, Uday suri S/o J.M Suri & Smt. Kumari Neha Suri D/o J.L. Suri Eq. Share 9/139 Share, Smt. Birwati W/o Lakshman S/o Madan Lal 4/139 Share, Arun Ghosh S/o R.P Ghosh & Smt. Sancheta

						Ghosh W/o Arun Ghosh Eq. Share 9/139 Share, Pahlad, Padam, Naresh, Jai Prakash S/o Kishan S/o Ganpat Eq. Share 4/139 Share. Ritik Son & Bharti Sharma Daughter & Meena Kumari Wd/o Dinesh Kumar Eq. Share 1/139 Share, Smt. Payal Mittal Tiwari W/o Aashish Tiwari S/o Shyam Sunder Lal 9/139 Share, Mahipal S/o Nahar Singh 14/139 Share, Rajesh Mehndiratta S/o A.P. Mehndiratta 4/139 Share, Smt. Susheela Devi W/o Ram Niwas Yadav 1/139 Share, Smt. Jaswanti W/o Ramphal Yadav & Smt. Sunita W/o Nand kishor Eq. Share 1/139 Share
--	--	--	--	--	--	---

[F. No. 2013/LML/II/12/8/WC/ 423]

O. P. SINGH, Executive Director (Land and Amenties-1)